(पौष माह) वर्ष-10, अंक 192, पृष्ठ- 8, मूल्य : 02 रुपये

प्रयागराज गुरुवार 10 अक्टूबर, 2024

TM

नगर संस्करण

आधुनिक भारत का आधुनिक नजरिया

आधुनिक समाचार

प्रयागराज से प्रकाशित एवं सम्पूर्ण भारत वर्ष मे प्रसारित

Adhunik Samachar

सोफिया सिंह ने मिस एशिया पैसिफिक इन्टरनेशनल 2024 का अवार्ड जीता

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नोएडा। नोएडा सेक्टर 55 की सोफिया सिंह ने मिस एशिया पैसिफिक इन्टरनेशनल अवार्ड अपने नाम करके सेक्टर 55 ही नहीं बल्कि पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। सोफिया सिंह के अवार्ड जीतने पर लोगों का कहना है कि सेक्टर वासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि सेक्टर की बेटी सोफिया सिंह ने मिस एशिया पैसिफिक इन्टरनेशनल अवार्ड 2024 का अवार्ड अपने नाम किया । यह उपलब्धि समस्त सेक्टर 55 को गौरवान्वित करने वाली है । हर्ष कि इस बेला पर समस्त सेक्टर 55 की बेटी सोफिया सिंह का सेक्टर में आगमन पर दिनांक 9 अक्टूबर को शाम 6:00 बजे सैक्टर के गेट नंबर 5 पर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल एवं समस्त आरडब्ल्यूए टीम व समस्त सेक्टर 55 के पारिवारिक जन हृदय की उमंगो एवं हर्ष से जोरदार स्वागत करेंगे।

रोजगार मेलें में कुल 47 अभ्यर्थियों का चयन

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

प्रयागराज। मंगलवार को नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। जिसमें इंडो विजन कंपनी ने प्रतिभाग किया। इस मेलें में विभिन्न पदों पर कम्पनियों द्वारा कुल 47 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इस अवसर पर सेवायोजन अधिकारी श्री प्रभाकर तिवारी, प्रदीप झा मोहम्मद कौसर, रोहित शुक्ला, अधिवक्ता विनय पांडे,शीतला प्रसाद, सुधांशु शर्मा, प्रीतिपांडे, श्रीकांत आदि उपस्थित रहे।

मानपुर गांव में अनसूचित मोर्चा ने चलाया सदस्यता अभियान

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

सोनभद्र। भारतीय जनता पार्टी पर के नेतृत्व में सदस्यता महा पर्व अभियान के अंतर्गत भाजपा अनुसूचित जात मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सदर ब्लाक प्रमुख अजीत रावत के नेतृत्व में बुधवार को विधानसभा घोरावल के ग्राम पंचायत मानपुर में महापर्व सदस्यता कैंप लगाकर सम्मानित जनता जनार्दन का भाजपा से जोड़ने का काम किया गया भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सदर ब्लाक प्रमुख अजीत रावत ने बताया कि अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य व प्रदेश सदस्य रामचंद्र कनौजिया के दिशा निर्देश के क्रम में अनुसूचित मोर्चा द्वारा कैंप लगाकर भाजपा महापर्व सदस्यता अभियान कराया जा रहा है इसी क्रम में बुधवार को 86 लोगो को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई गई। वही सदर ब्लाक प्रमुख अजीत रावत ने बताया कि भाजपा संगठन जिला अध्यक्ष नंदलाल गुप्ता के दिशा निर्देश के क्रम में अनुसूचित मोर्चा द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक भाजपा सदस्यता अभियान घर-घर पहुंचकर किया जा रहा है वहीं अनुसूचित मोर्चा के बूथ अध्यक्ष सेक्टर अध्यक्ष एवं अन्य प्रभारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है अपने-अपने क्षेत्र में मिलि जिम्मेदारियां का निर्माण करते हुए अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ने का काम करें ।

NAINI INDUSTRIAL TRAINING CENTRE

(Govt. Affiliated, Star Graded, Record Holder, ISO Certified Training Centre)

सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी एण्ड इण्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी

फायर सेफ्टी पर जिसकी कमाण्ड, उसकी ही है ग्लोबल डिमाण्ड

कोर्स के बाद सेफ्टी सुपरवाइजर, फायर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर आदि विभिन्न पदों पर नियुक्ति मिल जाती है।

रिलीफ एजेन्सी N.G.O., डिफेन्स सर्विसेज फायर सर्विस आर्डिनेन्स फैक्ट्री, महानगर पालिका, नगर निगम, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, स्टील प्लान्ट, माइनिंग इन्डस्ट्रीज,पेट्रोलियम कम्पनी, फूड इण्डस्ट्रीज, रिफाइनरीज, टेक्सटाइल मिल, टावर कम्पनी, इलेक्ट्रानिक कम्पनी, कोयले की खदानों एवं जहाजों आदि क्षेत्रों में फायर सेफ्टी के जानकारों को बहुत अधिक मौका मिलता है

नोटः फायर सेफ्टी कोर्स करें और देश -विदेश, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में अच्छे पैकेज के साथ नौकरी पायें।

Visit us at www.nainiiti.com Call: 9415608710, 7459860480

Enjoy Publicity



ऐतिहासिक राम दल की सिविल लाइंस उद्योग व्यापार मंडल द्वारा ढेढ़िया द्वारा नज़र उतार कर आरती स्वागत किया

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

प्रयागराज। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सिविल लाइंस में निकले वासियों ने ढेढ़िया से अपने आराध्य श्री राम की नजर उतारी थी । इस परंपरा को आगे बढाते हुए सिविल भव्य आरती शहर उत्तरी के विधायक श्री हर्ष वर्धन बाजपेई जी एवं ए सी पी सिविल लाइंस श्याम

ऐतिहासिक राम दल में सिविल लाइंस उद्योग व्यापार मंडल द्वारा तुलसियानी प्लाजा के सामने विशाल मंच लगाया गया । मंडल के अध्यक्ष नीरज जायसवाल पार्षद पंकज जयसवाल, मंडल महामंत्री एवं सुविख्यात गायिका स्वाती निरखी की अगुवाई में प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता की लोक परंपरा के अनुसार ढेढ़िया नृत्य के द्वारा नजर उतारी गई तथा भव्य और दिव्य आरती की गई। प्राचीन काल में त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम अपना 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौट रहे थे तब प्रयाग आने पर प्रयागराज लाइंस उद्योग व्यापार मंडल द्वारा यह भव्य कार्यक्रम किया गया। विशाल मंच पर प्रयागराज शहर के सभी गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे। अपार जनसमूह ने श्री राम का स्वागत किया। ढेढ़िया नृत्य लखनऊ से आए रूपक आर्ट के लोक कलाकारों एक दल ने प्रस्तुत किया जिसके नायक वरुण कुमार थे। इस मौके पर सिविल लाइंस उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी गण एवं आदर्श व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष रमेश केसरवानी , उपस्थित रहे सिविल लाइंस द्वारा निकल गए भगवान रामचन्द्र जी एवं हनुमान जी की जीत जी के द्वारा किया गया और पर व्यापार मंडल द्वारा दोनों अथियों का साफा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार पर्व महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी भगवान रामचंद्र जी की आरती किया आज के कार्यक्रम में विशेष सहयोग सिविल लाइंस के पार्षद,पंकज जायसवाल ने अपना पूरा योग दिया ,कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पवन श्रीवास्तव, उज्वल सचदेवा, निखलेश केसरवानी, अभिषेक जीभावना गौड़, विशाल जी,रजत चड्ढा, के अलावा तमाम व्यापारी केवल सिविल लाइन क्षेत्र के पदाधिकारी ने भाग लिया।

अरैल महर्षि आश्रम प्रयाग सहस्त्र चण्डी महायज्ञ

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नैनी प्रयागराज। स्वामी ब्रह्मानंद चैरिटेबल ट्रस्ट अरैल महर्षि आश्रम प्रयाग नैनी आश्रम के प्रभारी सुनील श्रीवास्तव,बसंत सरदार पतविंदर सिंह स्वयंसेवक आदि रहे। साथ ही अरैल महर्षि आश्रम प्रयाग नैनी मे विजयदशमी के लिए 40 फीट ऊंचा रावण तैयार कर रहे हैं वैदिक ब्राह्मण

दास ने बताया कि सहस्त्र चण्डी महायज्ञ 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक होगा। इस अवसर 500 वैदिक ब्राह्मण द्वारा पूजा-पाठ,सिमरन, ध्यान किया जा रहा है विश्व शांति कल्याण हेतु। ऋषि द्विवेदी ,विमल, सोनू,जितेंद्र,जयप्रकाश,प्रसन्न, विशिष्ट,नागेश,अमित प्रजापति, निरंजन प्राणी,काशी सचिन निर्जरिया,दुकान महापात्र,अजय पांडा,नरसिंह दास, सूर्यकांत त्रिपाठी,मिलन दास,सचिन पांडा,संजीव खनल,गोविंद भतुराई, रमेश महापात्र,आशीष कुमार मिश्र, विमल मिश्रा,श्रुति रंजन द्विवेदी, अमित प्रजापति,सरदार पतविंदर सिंह रहे।

विकास नगर मार्ग का नपा अध्यक्ष ने किया लोकार्पण

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

सोनभद्र। रावटसगंज नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में 15वां वित्त आयोग द्वारा सड़क निर्माण का जल्द ही सभी वार्डों के सड़क नाली प्रकाश कार्य को पूर्ण करने को लेकर बनाई गई है रूपरेखा होंगे विकास कार्य। भाई रूबी प्रसाद ने बताया अध्यक्ष ने बताया कि सभी वार्डों में सड़क के साथ सुंदरीकरण के लिए विशेष तौर पर दिशा निर्देशित किया गया है इस मौके पर भाजपा

लोकार्पण नगर पालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद द्वारा मंगलवार को किया गया। अध्यक्ष रूबी प्रसाद ने बताया कि विगत कई वर्षों से गड्ढा युक्त सड़क से मुक्त हुए विकास नगर वासी विकास कार्यों को लेकर सभी वार्डो का कर लिया गया है समीक्षा कि सभासद कन्हैयालाल कनौजिया के नेतृत्व में लोकार्पण करते हुए सड़क किनारे इंटरलॉकिंग के साथ सुंदरीकरण व पार्किंग लाइटिंग के साथ वार्ड की सुंदरता के लिए विशेष ध्यान के साथ कार्य करने को दिशा निर्देशित किया गया वहीं किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष यादवेंद्र दत्त द्विवेदी, जेई मनीष कुमार, सभासद अनवर अली,आसीस केशरी,अमित दुबे ,शनी कुमार उपाध्याय, संजय जैसवाल ,आकाश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

पाक्सो एक्टः दोषी छविंदर को 20 वर्ष की कठोर कैद

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

सोनभद्र। ढाई वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी छविंदर को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने ओबरा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को छविंदर पुत्र रामबहाल निवासी टोला नदहरी ग्राम सभा बैरपुर, थाना ओबरा, जिला सोनभद्र को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। उसकी हर संभावित जगहों पर तलाश किया गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बेटी 29 मार्च 2022 से गायब है। उसके बाद पुलिस ने 2 अप्रैल 2022 को बलात्कार और पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। दौरान विवेचना विवेचक ने बयान लेने के बाद पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी छविंदर को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

रोजगार मेलें में कुल 107 अभ्यर्थियों का चयन

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

सोनभद्र। मंगलवार को जिला सेवायोजन कार्यालय, सोनभद्र द्वारा जय माँ भगवती सोनांचल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पुसौली, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में रोजगार

मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन (सोनभद्र डिपो) में चालक की संविदा भर्ती एवं निजी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियां जिसमें विजन इण्डिया लि0 (हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0), लैट्रीक स्टाफींग, एस0आई0आई0सी0, एल0आई0सी0, रावर्ट्सगंज, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लि0, वाराणसी, एडेको इण्डिया प्रा0लि0, शिव शक्ति एग्रीटेक लि0, वाराणसी भारत फाईनेन्सियल इन्क्लूजन लि0, लखनऊ इत्यादि कम्पनियों ने प्रतिभाग किया। इस मेलें में विभिन्न पदों पर कम्पनियों द्वारा कुल 107 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इस अवसर पर सेवायोजन अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी, जय माँ भगवती स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रबन्धक डा0 अखिलेश मिश्रा, प्रचार्य डा0 शशि पाठक, सेवायोजन विभाग के सच्चिदानन्द, रोजगार मेला प्रभारी जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार सिंह, पवन कुमार सोनकर, यंग प्रोफेशनल सुरेन्द्र कुमार प्रजापति, मनोज कुमार एवं अंशोक कुमार प्रजापति आदि उपस्थित रहे।

आधुनिक
गेस्ट हाउस
• वाटर प्रूफ शेड
• पार्किंग की सुविधा
• मन्दिर की सुविधा
• सी.सी.टीवी.
• छोटे-बड़े कार्यक्रमों के अलग-अलग रेट
• 45000 sq. feet. एरिया
• हरे-भरे वातावरण
• AC कमरा (VIP)
CALL: 9519313894,9415608783, 9415608710
आधुनिक समाचार पब्लिशिंग हाउस, यूपीएसआईडीसी, रेमण्ड रोड, औधोगिक थाने के पीछे भारत पेट्रोलियम के पहले, औधोगिक क्षेत्र, नैनी, प्रयागराज

DURGAWATI INTERNATIONAL SCHOOL & COLLEGE
URGENT REQUIREMENT
TRAINED & EXPERIENCED TEACHERS
FOR CLASSES VI to XII
SUBJECTS - ENGLISH, MATHS, S.ST , SCIENCE & COMPUTER
RESIDENCE FACILITY ALSO AVAILABLE FOR TEACHERS
Walk in Interview on 23-06-2024
Interested Candidates can send their Resume on the given contacts
Candidate should hold fluent English Communication Skill along with the qualified degrees
For more details Contact on: 7505561664, 9415017879



संक्षिप्त समाचार

जन्मदिन का केक खाकर पांच साल के बच्चे की मौत

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

बंगलूरू। कर्नाटक की राजधानी में जन्मदिन का केक खाकर पांच साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। माता-पिता की हालत गंभीर है। केक के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। घटना फूड

प्वाइजनिंग का नतीजा हो सकती है। बंगलूरू के भुवनेश्वरी नगर इलाके में जन्मदिन का केक खाने के बाद पांच वर्ष के बच्चे धीरज की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता की हालत गंभीर है। दोनों का केआईएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जांच की जा रही है और केक के नमूने फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बलराज स्विगी डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता है। वह रविवार रात एक कस्टमर के ऑर्डर कैंसिल कर देने के बाद केक अपने घर ले आया था।

जर्मन महोत्सव जैसा होगा शोल्ज का भारत दौरा'

राजदूत बोले- अंतर सरकारी परामर्श करेंगे चांसलरएकरमैन ने कहा, 'मूल रूप से, हम जो करने जा रहे हैं वह एक प्रकार का जर्मन महोत्सव है। मैं कहूंगा कि अक्तूबर के अंत में, हम अंतर-सरकारी परामर्श करेंगे, जहां, वास्तव में चांसलर और सात-आठ मंत्री दिल्ली की यात्रा करेंगे। उसी समय, हमारे पास जर्मन व्यवसाय का एशिया प्रशांत सम्मेलन होगा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज अक्तूबर के आखिरी में अंतर सरकारी परामर्श (आईजीसी) के लिए भारत दौरे पर रहेंगे। शोल्ज के दौरे से पहले भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने मंगलवार को कहा कि शोल्ज के दौरे का समय एक तरह का 'जर्मन महोत्सव' होगा। उन्होंने बताया कि शोल्ज के लगभग सात से आठ मंत्रियों वाले एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। एकरमैन ने कहा, 'मूल रूप से, हम जो करने जा रहे हैं वह एक प्रकार का जर्मन महोत्सव है। मैं कहूंगा कि अक्तूबर के अंत में, हम अंतर-सरकारी परामर्श करेंगे।

बृज बिहारी केस में शीर्ष अदालत से छिपाया गया सच; जदयू विधायक के जिंदा भाई को कोर्ट ने माना मृत

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट भौतिक निरीक्षण नहीं करता है। वह पुलिस और अधिवक्ताओं की ओर से प्राप्त साक्ष्यों की रोशनी में केस को देखता है। ऐसे में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां

सुप्रीम कोर्ट से ही फर्जीवाड़ा हो गया है।आम आदमी से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा तक के अफसरों से फर्जीवाड़े की खबरें आपने सुनी होंगी; लेकिन इस बार देश के सर्वोच्च न्यायालय से फर्जीवाड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को बिहार के एक केस में झांसे में ऐसा रखा गया कि उसने बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में अंतिम फैसला लिखते समय एक जीवित को मृत मान लिया। बिहार के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में दोषी और निर्दोष माने गए सभी अभियुक्त चर्चित या उनके करीबी थे। ऐसे में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाईटेड के विधायक अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय के भाई और बिहार के गोपालगंज, सारण से लेकर उत्तर प्रदेश तक के नामी सतीश पांडेय को सुप्रीम कोर्ट में 'मृत' बताया जाना और फैसले में इसका ही जिक्र आना चर्चा में है। पत्नी स्व. उर्मिला पांडेय गोपालगंज जिला परिषद् की निर्विरोध अध्यक्ष रही थीं। बेटे मुकेश पांडेय भी जिला परिषद् अध्यक्ष रह चुके हैं। बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में राष्ट्रीय जनता दल के वैशाली लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने तीन अक्टूबर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उन्हें दो हफ्ते में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि 2014 में हाईकोर्ट से निर्दोष करार दिए जाने के कारण यह फिलहाल बाहर हैं। इसी केस में लोक जनशक्ति पार्टी के बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, बाहुबली पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत छह आरोपियों को इस हत्याकांड से सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। चालीस पेज इस फैसले के दस्तावेज में सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह सतीश पांडेय को मृत मानते हुए आगे इसपर चर्चा ही नहीं की है। सीतीश पांडेय के छोटे भाई अमरेंद्र पांडेय कुचायकोट से लगातार पांचवीं बार जदयू विधायक हैं। जब बृज बिहारी प्रसाद और उनके अंगरक्षक बिहार पुलिस के सिपाही लक्ष्मेश्वर साहू की हत्या हुई थी, तब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे।

देशभर में भूख हड़ताल करेंगे डॉक्टर्स, आरजी कर अस्पताल के 50 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। डॉक्टरों के संघ ने सोमवार को एक बैठक की थी, जिसमें भूख हड़ताल को बुधवार (9 अक्तूबर) से शुरू करने का फैसला लिया गया था। एफएआईएमए के अध्यक्ष सुव्रंकर दत्ता ने कहा, हम पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के साथ लगातार संपर्क में हैं और अपने रुख पर एकजुट हैं। पश्चिम बंगाल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर आज डॉक्टर्स राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल करेंगे। डॉक्टर्स द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) ने समर्थन दिया है। एफएआईएमए ने देशभर के स्वास्थ्य कर्मियों से भूख हड़ताल में भाग लेने का आह्वान किया है। डॉक्टरों के संघ ने सोमवार को एक बैठक की थी, जिसमें भूख हड़ताल को बुधवार (9 अक्तूबर) से शुरू करने का फैसला लिया गया था। एफएआईएमए के अध्यक्ष सुव्रंकर दत्ता ने कहा, हम पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के साथ लगातार संपर्क में हैं और अपने रुख पर एकजुट हैं। दत्ता ने कहा कि, व्यापक विचार-विमर्श के बाद हमने पश्चिम बंगाल में अपने सहयोगियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है। दत्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि भूख हड़ताल का उद्देश्य जूनियर डॉक्टरों की आवाज को बुलंद करना है। जो बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य आवश्यक सुधारों की वकालत करते हुए हफ्तों से हड़ताल पर हैं। एफएआईएमए ने एक बयान में कहा कि डॉक्टरों के संघ ने देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों से हड़ताल में भाग लेने का आह्वान किया है, ताकि निष्पक्ष उपचार और बेहतर स्थितियां लेकर उनकी लड़ाई को और मजूबत किया जा सके। वहीं, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के करीब 50 वरिष्ठ डॉक्टरों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन डॉक्टरों ने यह कदम जूनियर डॉक्टरों के साथ एकजुटता जताने के लिए उठाया है। जूनियर डॉक्टर एक महिला डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म के मामले में न्याय की मांग करते हुए अनशन पर हैं। स्वास्थ्य संकाय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर भी आरजी कर अस्पताल के अपने सहयोगियों के नक्शेकदम पर चलने पर विचार कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने महिला डॉक्टर के मामले में न्याय की मांग के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रणाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठाई है। इस बीच, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता के माता-पिता भी मंगलवार शाम को धरने पर बैठे। पहले कहा गया था कि वे बुधवार से (षष्ठी से दशमी) तक धरने पर

बैठेंगे, लेकिन मंगलवार की शाम को पंचमी पर ही परिवार ने घर के सामने मंच पर बैठने का निर्णय लिया। पीड़िता के माता-पिता ने कहा, हम घर में रह नहीं पा रहे हैं। यहीं हम शोक की पूजा करेंगे। उल्लेखनीय है कि बेटी को न्याय मिले इसके लिए वे प्रदर्शनों में शामिल हो चुके हैं। जब कोलकाता के धर्मतला में जूनियर डॉक्टर न्याय की मांग के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं, तब वृद्ध दंपती ने अपने घर के सामने धरने पर बैठने का निर्णय लिया। घउन्होंने बताया कि चाहने वाले कोई भी धरनास्थल पर आ सकते हैं, लेकिन मंच पर केवल रिश्तेदार रहेंगे। शाम को जब बेटी की याद में मोमबत्तियां जलाईं तो बेटी को याद करते हुए माता-पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के प्रयास से घर में दुर्गा पूजा होती थी। अब शायद ही कभी घर पर फिर पूजा हो। उन्होंने कहा, त्योहार के इन कुछ दिनों में घर में रहकर उन्हें सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। बेटी की बातें, पूजा के दिन बेटी की व्यस्तता की यादें बार-बार आ रही हैं। इसलिए घर के सामने मंच बनाकर उन्होंने बेटी के न्याय के लिए धरने पर बैठने का निर्णय लिया। यह धरना दशमी तक जारी रहेगा।वहीं, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में चल रही 90 प्रतिशत परियोजनाएं अगले महीने तक पूरी हो जाने की उम्मीद जताते हुए मुख्य सचिव मनोज पंत ने आंदोलनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया। मुख्य सचिव मनोज पंत ने दावा किया कि सीसीटीवी लगाने का 45 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है और 62 प्रतिशत नवीनीकरण और निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सभी से काम पर वापस आने और लोगों को सेवाएं देने का अनुरोध कर रहा हूं।

22 पाकिस्तानियों को कर्नाटक में बसाने वाला शख्स गिरफ्तार, बनवाए फर्जी हिंदू नामों के कागजा

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। परवेज ने अब तक 22 पाकिस्तानियों को उनके फर्जी हिंदू नामों के साथ बंगलूरू समेत कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में बसने में मदद की। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने सभी की असली पहचान छिपाई और उनके हिंदू नाम वाले

कागजात, रहने और बाकी की व्यवस्था की। कर्नाटक पुलिस ने अवैध तौर पर पाकिस्तान को भारत में पनाह दे रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने अभी तक करीब 22 लोगों को अवैध तौर पर भारत में बसने में मदद की है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में पनाह देने और बसाने में मदद करने वाले परवेज नामक के शख्स को मंगलवार को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया है परवेज ने अब तक 22 पाकिस्तानियों को उनके फर्जी हिंदू नामों के साथ बंगलूरू समेत कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में बसने में मदद की। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने सभी की असली पहचान छिपाई और उनके हिंदू नाम वाले कागजात, रहने और बाकी की व्यवस्था की।सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि हाल ही में पाकिस्तान के एक परिवार के चार सदस्यों को बंगलूरू के जिगानी में गिरफ्तार किया गया था। ये लोग फर्जी हिंदू पहचान के आधार पर यहां रह रहे थे। इनकी सूचना पर यहां पीन्या से भी ऐसे ही एक दंपती और उनकी बेटी पकड़ा गया। उनसे पूछताछ में पता चला है कि कुछ पाकिस्तानी दावणगेरे जिले में भी रह रहे थे। बाद में उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश की तो परवेज का नाम सामने आया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है बता दें कि पिछले महीने बंगलूरू पुलिस ने एक पाकिस्तानी नागरिक को उसकी बांग्लादेशी पत्नी और दो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था।

बच्ची के शव का पोस्टमार्टम नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र को लगाई फटकार

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। जस्टिस तीर्थंकर घोष की पीठ ने मंगलवार को जयनगर के कुलतली की पीड़िता के परिवार

की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।कलकत्ता हाईकोर्ट ने नदिया जिले के कल्याणी एम्स में पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा नहीं होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा- छात्रों को क्या सिखा रहे। साथ ही कहा कि दिल्ली एम्स की तरह नहीं तो ऋषिकेश एम्स की तरह संरचना बनाई जा सकती है। इसके लिए दिसंबर 2025 तक की समय सीमा भी तय कर दी है। जस्टिस तीर्थंकर घोष की पीठ ने मंगलवार को जयनगर के कुलतली की पीड़िता के परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। परिवार ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम किसी केंद्रीय अस्पताल में कराने की याचिका दायर की थी। लेकिन पहले कमांड अस्पताल ने बताया कि उसके पास जरूरी सुविधा नहीं और फिर कल्याणी एम्स ने भी यही बात कही थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर कल्याणी के जेएनएम अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई है। हाईकोर्ट ने आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया है। ब्यूरो जस्टिस घोष ने केंद्र की ओर से पेश वकील से पूछा कि कल्याणी एम्स की यह 'हालत' क्यों है। क्या अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर है। न्यायाधीश ने कहा कि जिस एम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है वहां अगर पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक सुविधा नहीं है तो छात्रों को क्या सिखाया जा रहा है। क्या वहां के छात्र पोस्टमार्टम करना सीखे बिना ही डॉक्टर बन रहे हैं।

चुनावों से पहले पीएम महाराष्ट्र को देंगे बड़ा तोहफा, 7,600 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, हवाईअड्डे का उन्नयन विनिर्माण, विमानन, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा, जिससे नागपुर और विदर्भ क्षेत्र लाभान्वित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें नागपुर में करीब 7,000 करोड़ की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हवाईअड्डे के उन्नयन की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, हवाईअड्डे का उन्नयन विनिर्माण, विमानन, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा, जिससे नागपुर और विदर्भ क्षेत्र लाभान्वित होगा। पीएम शिरडी हवाईअड्डे पर 645 करोड़ से बनने वाले नए एकीकृत टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखेंगे। पीएमओ ने कहा कि सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत मोदी महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक, जालना, अमरावती, गढ़चिरौली, बुलढाणा, वाशिम, भंडारा, हिंगोली और अंबरनाथ (ठाणे) में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन की शुरुआत करेंगे। लाओस जाएंगे पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी 10-11 अक्तूबर को लाओस दौरे पर रहेंगे, जहां उन्हें 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन व 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है। पीएम की यह यात्रा आसियान देशों से रिश्ते और मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया, यह यात्रा ऐसे समय में और भी महत्वपूर्ण हो गई है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति को 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आसियान देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण को केंद्रीय आधार माना जाता है। पीएम मोदी लाओस के अपने समकक्ष सोनेक्से सिफानदोन के निमंत्रण पर दो दिन लाओस की राजधानी वियंतियाने में रहेंगे। लाओस, दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) का वर्तमान अध्यक्ष देश है। लाओस की मेजबानी में होने जा रहे दो शिखर सम्मेलनों के दौरान पीएम सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।

हरियाणा में काम आई सोशल इंजीनियरिंग, जम्मू ने दर्शाया कमजोर नहीं पड़ी हिंदुत्व राजनीति की धार

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। ये नतीजे लोकसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में उपजी निराशा को दूर कर ब्रांड मोदी को फिर से चमकाने में मददगार माने जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में भाजपा के हाथ सत्ता की चाबी भले ही न लगी हो। आरक्षण और संविधान

पर खतरे को लेकर विपक्ष की बनाई धारणा के कारण लोकसभा चुनाव में पहुंचे नुकसान के बाद जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के नतीजे भाजपा के लिए संजीवनी से कम नहीं हैं। हरियाणा में जीत की हैट्रिक और जम्मू-कश्मीर में पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन से न सिर्फ पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र व झारखंड के चुनाव के अलावा यूपी में अहम माने जाने वाले दस विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर भी इसका असर पड़ना तय है। ये नतीजे लोकसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में उपजी निराशा को दूर कर ब्रांड मोदी को फिर से चमकाने में मददगार माने जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में भाजपा के हाथ सत्ता की चाबी भले ही न लगी हो, लेकिन यह साफ हो गया कि देश में हिंदुत्व और राष्ट्रवादी राजनीति की धार कुंद नहीं पड़ी है। अनुच्छेद 370 व 35ए के खात्मे के बाद भी भाजपा जम्मू संभाग में फिर अजेय रही है। जाहिर है, भविष्य में कश्मीर घाटी की राजनीति के करवट लेने पर पार्टी वहां चमत्कार करने की स्थिति में रहेगी। यही नहीं, भारी मतदान के साथ मोदी सरकार दुनिया को बड़ा संदेश देने में भी सफल रही है।भाजपा को असली राहत हरियाणा के नतीजों ने दी, क्योंकि जिस राज्य में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने आधी सीटें गंवा दी थीं, वहां उसे अपने दम पर दूसरी बार बहुमत मिला है। यह लोकसभा चुनाव में छिटके ओबीसी व दलित वर्ग का विश्वास फिर हासिल करने से संभव हुआ। पार्टी गैरजाट बिरादरियों को साधने में भी सफल रही। काम आई संघ की सक्रियता : चुनाव की कमान परोक्ष रूप से संघ ने संभाली थी। दोनों राज्यों में संघ ने निराश कार्यकर्ताओं को घर से निकालने, चुनावी प्रबंधन, टिकट वितरण और रणनीति में हस्तक्षेप किया। इससे कोर मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने में सफलता मिली। संघ से खटास की खबरों के बीच ये नतीजे दोनों को करीब लाएंगे। समय अहम : नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब अगले महीने झारखंड-महाराष्ट्र में चुनाव की संभावना है। नए साल में दिल्ली और अंत में बिहार में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी ओबीसी, तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति के पास है। दिल्ली में दलितों की बड़ी आबादी है तो बिहार की पहचान ही जातीय राजनीति है। हरियाणा की बात करें तो भाजपा ने लोकसभा चुनाव नतीजों को पीछे छोड़ते हुए दलित बहुल इलाकों में मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। बीते चुनाव में 17 में से महज पांच सुरक्षित सीट जीतने वाली भाजपा इस बार आठ सीटों पर जीती।

लद्दाख में स्थापित की गई एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन खुलेंगे ब्रह्मांड के रहस्य

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। बीएआरसी की ओर से बयान में कहा गया कि 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दूरबीन दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची दूरबीन भी है।भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) द्वारा निर्मित एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का लद्दाख के हानले में उद्घाटन किया गया है। इस मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरीमेंट (एमएसई) वेधशाला को बीएआरसी की मदद से स्थापित किया गया है। इस दूरबीन के लगने से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। बीएआरसी की ओर से बयान में कहा गया कि 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दूरबीन दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची दूरबीन भी है। चार दिन पहले परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के सचिव अजीत कुमार मोहंती द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यह दूरबीन, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) और अन्य भारतीय



उद्योग भागीदारों के सहयोग से मुंबई स्थित बीएआरसी ने निर्मित की है। एमएसीई वेधशाला का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा विभाग के प्लैटिनम जयंती वर्ष समारोह का हिस्सा है। प्रमुख वायुमंडलीय चेरेनकोव प्रयोग (एमएसीई) वेधशाला का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. अजीत कुमार मोहंती ने 4 अक्टूबर 2024 को लद्दाख में किया। अपने उद्घाटन भाषण में मोहंती ने सामूहिक प्रयास की सराहना की। जिसके कारण एमएसीई दूरबीन का निर्माण संभव हो सका। उन्होंने कहा कि एमएसीई वेधशाला भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह देश को वैश्विक स्तर पर कॉस्मिक-रे अनुसंधान में अग्रणी स्थान पर रखती है।डीएई सचिव ने कहा कि दूरबीन से वैज्ञानिकों को उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों का अध्ययन करने में मदद मिलेगी, जिससे ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं को गहराई से समझने का मार्ग प्रशस्त होगा। मोहंती ने इस बात पर जोर दिया कि एमएसीई परियोजना न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि लद्दाख के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी सहायक होगी।

पुलिस हिरासत में महिला को यातना मामले की होगी सीबीआई जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 नवंबर तक मांगी रिपोर्ट

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआई को 8 से 11 सितंबर के बीच पुलिस हिरासत में हुई कथित शारीरिक यातना की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, 'मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने

का निर्णय हिरासत में यातना के गंभीर आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर आधारित है।'कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक महिला की कथित पुलिस हिरासत में यातना की सीबीआई जांच का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि दो याचिकाकर्ताओं ने हिरासत के दौरान पुलिस पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया, जबकि एक जेल अधिकारी की रिपोर्ट ने उनमें से एक पर इस तरह के कृत्य की पुष्टि की। अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी को 15 नवंबर तक उसके समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में हाईकोर्ट 18 नवंबर को फिर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआई को 8 से 11 सितंबर के बीच पुलिस हिरासत में हुई कथित शारीरिक यातना की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, 'मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्णय हिरासत में यातना के गंभीर आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर आधारित है।'उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों की कथित संलिप्तता के कारण स्थानीय पुलिस द्वारा जांच करने में स्वार्थ का टकराव हो सकता है।

मिर्ज़ापुर सोनभद्र



लक्ष्मण ने काटी सूपर्णखा की नाक, रावण ने किया सीता का हरण

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

सोनभद्र। श्री रामलीला समिति सोनभद्र नगर द्वारा आयोजित रामलीला के छठे दिन प्रयागराज के कलाकारों ने सुप्रसिद्ध नक्कटैया व खर-दूषण वध, सीताहरण का जीवंत मंचन किया। पूरा पंडाल दर्शकों से खचाखच भरा रहा। बीच-बीच में श्रीराम के जयकारे लगते रहे। इसके पूर्व दोपहर में नगर के रामसरोवर तालाब पर प्रभु श्री राम-माता जानकी भ्राता लक्ष्मण के साथ गंगा के तट केवट के द्वारा पार कराने की लीला दिखाई गई। इस मर्मज्ञ लीला को देखने के लिए नगर की ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की काफी भीड़ रामसरोवर तालाब के चारों तरफ जुटी हुई थी। लीला शुरू होते ही वहां पर सभी श्रद्धालुओं की आंखें प्रभु के इस स्वरूप को निहार रही थी। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष पवन कुमार जैन, राकेश गुप्ता, कृष्ण मुरारी गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, प्रशांत जैन, बलराम सोनी, विनोद कनोडिया, चंदन केसरी दीपू पटेल, राजू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक राहुल, नगर कार्यवाह महेश, वरिष्ठ अधिवक्ता गिरजा शंकर द्विवेदी, मिठाई लाल सोनी, राकेश गुप्ता, राहुल गुप्ता, दीपू पटेल सहित अन्य लोग उपस्थित रहें।

म्योरपुर में खुले आदिवासी महिला डिग्री कॉलेज



(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

दुध्दी, सोनभद्र ।बुधवार को सरकारी उच्च शिक्षा का समुचित इंतजाम न होने के कारण आदिवासी बच्चे बड़े पैमाने पर पढ़ाई को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहें है।हालत इतनी बुरी है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षित सीटें खाली रह जा रही है और उन्हें दूसरे जाति समूहों द्वारा भरा जा रहा है। इसलिए म्योरपुर में सरकारी आदिवासी महिला डीग्री कालेज बनाने और पोखरा में बने कालेज को चालू कराने के सवाल पर लंबे समय से आंदोलन कर रहे युवा मंच के पदाधिकारियों ने दुध्दी के विधायक व पूर्व मंत्री विजय सिंह गोंड से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपा। युवा मंच की संयोजक सविता गोंड, ओबरा डिग्री कॉलेज की छात्र नेता गुंजा गोंड, सुगवंती गोंड, प्रशांत दुबे और राजकुमारी गोंड ने दिए ज्ञापन में कहा कि आदिवासी बाहुल्य दुद्धी में शिक्षा का बुरा हाल है। बेहद कम सरकारी इंटर कॉलेज और एक सरकारी डिग्री कॉलेज होने के कारण बच्चों समाज में योगदान करने की इच्छा के बावजूद शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। यहां पूर्ववर्ती सपा सरकार के समय निर्मित किया गया पोखरा राजकीय डिग्री कॉलेज 8 साल बाद की चालू नहीं हो सका है। ज्ञापन देने के बाद प्रेस को जारी अपने बयान में युवा मंच नेताओं ने कहा कि केंद्र की सरकार आदिवासियों के साथ छल कर रही है। अभी झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष महाअभियान पीएम द्वारा शुरू किया गया। इसमें कहा गया कि 83000 करोड़ की 17 परियोजनाओं को देश के 500 से भी ज्यादा जिलों में आदिवासियों के विकास के लिए लागू किया जाएगा। जबकि केंद्र सरकार द्वारा जनजाति सब प्लान में मनरेगा, शिक्षा-स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के मदों में भारी कमी की गई है। आदिवासी कल्याण की सरकारी घोषणाओं के सच को एक उदाहरण से समझा जा सकता है पूरी देश में आदिवासी छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था के लिए आदिवासी सब प्लान में महज10 लाख रुपए आवंटित किए गए। वहीं दूसरी तरफ जनजाति सब प्लान का करोड़ों रुपए हाईवे, टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर निर्माण, जल जीवन, सौर ऊर्जा आदि कॉर्पोरेट घरानों को सीधे मदद पहुंचाने वाली योजनाओं पर दिया गया है। युवा नेताओं ने दुद्धी विधायक से अपील की कि वह विधानसभा में यहां आदिवासी बच्चों की शिक्षा के सवाल को उठाएं और उत्तर प्रदेश सरकार से कहें कि वह तत्काल आदिवासियों बच्चों की शिक्षा के सवाल को हल करें।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति के संबंध में चलाएं जा रहे है अभियान

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

सोनभद्र। मिशन शक्ति पेज 05 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति के संबंध में चलाएं जा रहे है अभियान के क्रम मे आज दिनांक 09-10-24 को डीएवी सीनियर सेकेण्डरी कॉलेज चुर्क में मिशन शक्ति का आयोजन किया गया। जिसमें कॉलेज की छात्राओं व बच्चों को सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के संबंध में चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर, कार्यकारी योजनाओं महिला सशक्तिकरण के संबंध में हेल्पलाइन नंबर 1090, 1076 , 112 1930 साइबर क्राइम आदि आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई श्री संजय सिंह महिला कांस्टेबल थाना हर कोतवाली जनपद सोनभद्र।

सम्पूर्णता अभियान का किया गया भव्य तरीके से समापन

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

सोनभद्र। सम्पूर्णता अभियान कार्यक्रम के समापन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की शुरूआत मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधिका पटेल, मा0 विधायक घोरावल डा0 अनिल कुमार मौर्य, मा0 सासंद प्रतिनिधि सुनील गोंड जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, मुख्य विकास अधिकारी सुश्री जागृति अवस्थी ने दीप प्रज्जवलन व मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधिका पटेल ने कहा कि सम्पूर्णता अभियान में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सराहनीय कार्य किये गये है जिसके कारण से ब्लॉक हेतु निर्धारित छः सूचाकों में से पॉच सूचांक चतरा ब्लॉक संतृप्त हुआ है इसके लिए मैं सभी बधाई देती हूॅ, इस अवसर पर मा0 विधायक घोरावल डॉ0 अनिल कुमार मौर्य ने कहा कि जनपद सोनभद्र आकांक्षी जनपदों के श्रेणी में आता है जिसमें सम्पूर्णता अभियान के तहत 04 जुलाई से 30 सितम्बर तक विशेष अभियान चतरा ब्लॉक में चलाया गया और 05 सूचक पर ब्लॉक संतृप्त हुआ इसी तरह से अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बेहतर तरीके से कार्य किया गया तो जनपद पूरी तरह से सारे सूचांकों पर संतृप्त होगा और विकास के पथ के ओर अग्रसर होगा। इस अवसर जिलाधिकारी श्री बी0एन0 सिंह ने उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि नीति आयोग द्वारा जो 06 सूचक निर्धारित किये गये है उसमें से जनपद स्तर पे 04 सूचक संतृप्त हुए है और ब्लॉक स्तर पर 05 सूचक संतृप्त हुए है उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जो 6 महत्वपूर्ण सूचक निर्धारित किये गये उनकी पूर्ति हो जाने से समाज के ऐसे व्यक्ति का विकास होगा जो विकास के क्षेत्र में अब तक पीछे है सभी अधिकारीगण ने इस सम्पूर्णता अभियान जो 04 जुलाई से 30 सितम्बर तक चलाया गया जिसमें सराहनीय कार्य किये उसके लिए उन्हें बधाई देता हूॅ। उस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा एक नई योजना की शुरूआत की गयी जिसका नाम है जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों/ ग्राम सभाओं में निवास करने वाले अति निर्धन 25 परिवारो को भोजन, वस्त्र, मकान, चिकित्सा, अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु चिन्हित करते हुए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया जायेगा।

बाल तस्करो के चिन्हाकन हेतु चलाया जायेगा अभियान

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

सोनभद्र। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन में जनपद के रेलवे स्टेशन चोपन स्थित अधीक्षक कार्यालय मे बच्चो के सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अखिल नारायण देव पाण्डेय की अध्यक्षता में आज दिनांक-8-10-2024 को मासिक बैठक आहूत की गई इस दौरान बैठक मे जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा पूर्व के बैठक के अनुपालन के संबंध में समिति के समक्ष बिन्दुवार बताया गया साथ ही यह भी बताया गया किया विगत तीन माह मे एक प्रकरण नाबालिग बालिका का आर पी एफ चोपन द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट को दिया गया है, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अखिल नारायण देव पाण्डेय द्वारा सभी सम्बंधित को निर्देशित किया गया कि बाल तस्करी करने वाले तस्करो का चिन्हाकन करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु विशेष अभियान जनपद स्तर पर चला जाये। नीलू यादव द्वारा बताया गया कि बच्चों के सुरक्षा एवं संरक्षण से सम्बंधित सूचना तत्काल चाईल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर (1098) पर सूचित कर सकते है। प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव द्वारा बताया गया कि मानव तस्करी, बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम रोकथाम हेतु जागरूकता एवं रेस्क्यू अभियान जनपद स्तर पर संयुक्त टीम द्वारा चलाई जा रही है। बैठक मे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अखिल नारायण देव पाण्डेय, प्रभारी स्टेशन अधीक्षक चोपन विकास कुमार,आर पी एफ चोपन से प्रशांत कुमार, जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी गायत्री दुबे से ओ डब्ल्यू शेषमणि दुबे, चाईल्ड हेल्पलाइन यूनिट से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नीलू यादव , थाना मानव तस्करी रोधी इकाई से प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव,आरक्षी पंकज कुमार,जी आर पी चौकी चोपन से अवधेश कुमार,आदि उपस्थित रहे।

कोन में ब्लॉक स्तरीय क्विज प्रतियोगिता कार्यक्रम संपन्न

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

ओबरा / सोनभद्र। विकास खण्ड कोन अन्तर्गत ब्लॉक स्तरीय बच्चों शिक्षा में विज्ञान व गणित की बढ़ावा देने के लिए परिषद दिए उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को चयन किया गया ब्लॉक स्तरीय क्विज प्रतियोगिता के बतौर मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र नाथ दूबे ने सफल छात्रों का मेडल, प्रमाण पत्र व पुरस्कार वितरण किया। कार्यक्रम

विज्ञान व गणित में उत्तरोत्तर वृद्धि करने को लेकर ब्लॉक कोन में मंगलवार को राष्ट्रीय अविष्कार अभियान के तहत विकासखंड कोन के कुल 46 उच्च प्राथमिक विद्यालय/ कम्पोजिट विद्यालय में अध्ययन न बच्चों को विद्यालय स्तर पर चयनित बच्चों को ब्लॉक स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन बीआरसी पर कराया गया जिसमें विभिन्न विद्यालयों से 138 छात्र-छात्राओं ने क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। जिसमें लिखित व मौखिक परीक्षा के मूल्यांकन में उच्च प्राथमिक विद्यालय डोमा के विनीत कुमार ने प्रथम स्थान इस तरह दूसरे स्थान पर अवध कुमार व तीसरे स्थान पर राजकेश्वर उच्च प्राथमिक विद्यालय बोकराखाड़ी चौथा स्थान पर उच्च प्राथमिक विद्यालय किशुनपुरवा के आदित्य कुमार व पांचवा स्थान पर गुलाब गौस् , छठे स्थान पर यूपीएस कोन के काजू कुमार ने अपना स्थान बनाया। सभी छः टॉपर्स को जिला क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभा हेतु के आयोजक खंड शिक्षा अधिकारी लोकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि विज्ञान व गणित का दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोगी है जिसके सहारे आज हम सभी सफल हो रहे हैं और वहीं बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इसी तरह सभी लोग को आगे बढ़े और मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करें। वहीं डॉक्टर जीतेंद् नाथ दूबे ने बच्चों द्वारा बनाए गए विज्ञान प्रदर्शन का अवलोकन करते हुए खूब सराहा और पढ़ाई को आवश्यक बताते हुए विज्ञान क्विज प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा आगे भी हिस्सा लेने की बातें कही। पूरे प्रतियोगिता में सुबह सहित क्षेत्र के रप व शिक्षक पूरे लगन और निष्ठा के साथ सफल बनाने में जुटे रहे। अंत में सभी प्रतिभागी बच्चों का प्रमाण पत्र दिया गया इस मौके पर मुख्य रूप से एआरपी नीलमणि मिश्र, इअरविंद दुबे संतोष चौरसिया , मनीष त्रिपाठी , दीपमणि तिवारी, रमेश सिंह आदि दर्जनों शिक्षकों ने कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

अच्छे कार्य को देखते हुए विकास खण्ड चतरा के कर्मचारीयो को प्रशस्ति पत्र देकर जिलाधिकारी द्वारा किया गया सम्मानित

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

सोनभद्र। सोनभद्र जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में आकांक्षी जनपद एवं आकांक्षी विकास खंड चतरा के समग्र विकास से संबंधित संपूर्णता अभियान के समापन कार्यक्रम का आयोजन भव्यता से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की के 6 सूचकों में से 4 सूचकों और ब्लॉक स्तर के 6 सूचकों में से 5 सूचकों को संतृप्त किया जा चुका है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।जनपद स्तर पर लक्ष्यों की पूर्ति के तहत, प्रसवपूर्व देखभाल (ंण्) पंजीकरण में जून में 85.2इ् से बढ़कर सितंबर में 99.3इ् गर्भवती महिलाओं का (ंण्) पंजीकरण 94.14इ् से बढ़कर 97.60इ् तक पहुंच गया। मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच के मामले में, 100इ् लक्षित आबादी की जांच की गई, जो ब्लॉक के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा सुधार है। पूरक पोषण के मामले में, जून में 50.25इ् से बढ़कर सितंबर में पाने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों की सूचीःस्वास्थ्य विभागआशा मौर्य (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर)नीलम देवी (एएनएम) माया देवी (एएनएम) बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग विनीत कुमार सिंह (जिला कार्यक्रम अधिकारी) स्मिता वाजपेई (अपर सांख्यिकी अधिकारी) रविंद्र प्रकाश

शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधिका पटेल, घोरावल विधायक अनिल मौर्य, जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, मुख्य विकास अधिकारी सुश्री जागृति अवस्थी सहित कई महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी जनपदों और विकास खंडों के समग्र विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना था। इस संपूर्णता अभियान की अवधि 4 जुलाई से 30 सितंबर तक थी, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक विकास से जुड़े 6 महत्वपूर्ण सूचकांक पर कार्य किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने इस कार्यक्रम में बताया कि जनपद स्तर प्रथम तिमाही में पंजीकरण सुनिश्चित किया गया। पूरक पोषण के अंतर्गत, आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत 100इ् गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण प्रदान किया गया। बच्चों के टीकाकरण में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसमें 9-11 महीने के बच्चों का टीकाकरण 26.27इ् से बढ़कर 106इ् हो गया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तहत, 100इ् मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए, जिसमें तीन महीनों में 10,000 कार्ड जारी किए गए। माध्यमिक विद्यालयों में बिजली व्यवस्था के तहत, 48 में से 41 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, जिससे 85.4इ् लक्ष्य पूरा हुआ। साथ ही, शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह में 100इ् बच्चों को पाठ्यपुस्तकें प्रदान की गईं, जो एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि रहीब्लॉक स्तर पर लक्ष्यों की पूर्ति में चतरा ब्लॉक में प्रसवपूर्व देखभाल 100इ् गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण प्रदान किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तहत, 100इ् मृदा नमूना संग्रहण और कार्ड वितरण पूरा हुआ। इसके अतिरिक्त, चतरा ब्लॉक के सभी 1146 स्वयं सहायता समूहों को रेवोलविंग फंड प्रदान किया गया, जिससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदय ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी और विशेष प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के पंडालों का निरीक्षण भी किया गया। समापन कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र पाने वालों की सूची निम्नलिखित हैः प्रशस्ति पत्र गिरी (सीडीपीओ) बेसिक शिक्षा विभाग अरविंद कुमार पटेल (खंड शिक्षा अधिकारी) जय किशोर वर्मा (जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता) कृषि विभाग राकेश कुमार (सहायक विकास अधिकारी कृषि) संदीप कुमार पटेल (वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप बी) अरविंद कुमार पटेल (वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप बी) ग्रामीण आजीविका मिशन सरिता सिंह (उपयुक्त स्वत रोजगार) पुनीत कुमार गुप्ता (जिला मिशन प्रबंधक माइक्रोफाइनेंस) अर्थ एवं संख्या विभाग डॉ. कृष्णानंद उपाध्याय (अपर सांख्यिकी अधिकारी) नियोजन विभाग मनीषा सिंह (एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो) पिरामल फाउंडेशन वीरेंद्र कुमार पाण्डेय (डी पी एल) इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण और उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई, जिसने अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

किसानों को दिया मशरूम खेती करने का प्रशिक्षण

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

सोनभद्र। सदर ब्लाक अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र मंगुराही में मंगलवार को मशरूम उत्पादन की खेती के विषय में डा0रश्मि सिंह ने जिले के किसानों को खेती करने हेतु प्रेरित करते हुए इससे अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आह्वान कीं। साथ ही उन्होंने किसानों को प्रशिक्षण देते हुए उनसे कहा कि आप सब लोग मसरूम की खेती कर बाजारों में इसे अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। मशरूम स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने में कई मायने में सफल है। जिसे लोग काफी पसंद भी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को बताया कि इसका उत्पादन किस तरह किया जाय उससे मिलने वाले लाभ के विषय में जानकारी दी। इस दौरान पं0परमेश्वर प्रसाद मिश्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बभनौली तेंदू के प्रधानाचार्य संजय सिंह ने बताया कि जिस तरह से शरीर के विकास के लिए प्रोटिन की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार से पेड़ पौधों को स्वस्थ रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है जो किसानों के देख रेख से ही संभव हो सकता है। इस मौके पर डा0महेंद्र प्रताप सिंह, डा प्रभात कुमार सिंह, डा0राजीव कुमार एवं स्टाफ के रूप में नागेंद्र सिंह, विनोद सिंह व समस्त किसान उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कि बैठक

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

सोनभद्र। नवरात्रि,दशहरा, दीपावली, भाई दूज, छठ पूजा के दृष्टिगत धर्म गुरूओं के साथ की रखने हेतु सम्बन्धित को दिये गये निर्देश सोशल मीडिया पर अनाधिकृत ना करें पोस्ट,गलत पोस्ट पाये जाने पर सम्बन्धित के

बैठक दिये आवश्यक दिशा निर्देश आगामी त्यौहारों को भाई-चारा कायम रखते हुए सौहार्द पूर्ण माहौल में मनायें-जिलाधिकारी सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर व्यवस्थाओं को रखे दुरूस्त, ना हो कोई लापरवाही- जिलाधिकारी ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों, पंडालों, मन्दिरों के आस-पास करायी जाये साफ सफाई आगामी त्यौहार के दृष्टिगत पेयजल, विद्युत व्यवस्था रहें दुरुस्त विरूद्ध की जायेगी कड़ी कार्यवाही- पुलिस जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह व पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रट सभागार में धर्म गुरूओं के साथ आगामी त्यौहारो नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, भाई दूज, छठ पूजा के दृष्टिगत बैठक किये, बैठक में जिलाधिकारी ने सभी धर्म गुरूओं/ पूजा पंण्डालों के आयोजकगण, व अधिकारियों के साथ बैठक की, बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी त्यौहरों को आपसी भाई-चारा व सौहार्द पूर्ण माहौल में मनाया जाये त्यौहारों में किसी भी प्रकार की नयी परम्परा की शुरूआत न की जाये, पूजा पण्डालों व मूर्ति विसर्जन के दौरान धार्मिक गाने ही बजाये जायें, पूजा पण्डालों के आयोजकगण अपने वालेन्टीयर लगाये, उन्हें पहचान पत्र जारी करें, चिन्हित स्थलों पर मूर्ति विसर्जन संपन्न कराया जायेगा, पंडाल के आस-पास साफ सफाई, शोभा यात्रा, विसर्जन यात्रा पूर्व निर्धारित रूटों पर ही निकाली जाये, परंपरागत रूप से जो भी कार्यक्रम होते रहे हैं वही आयोजित कि, जाये, कोई भी नई परंपरा की शुरूआत नहीं होगी, जिलाधिकारी ने कहा कि त्योहारों के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति निर्वाध रूप से संचालित रहे, इसके लिए विद्युत विभाग के अधिकारी संपूर्ण व्यवस्था, दुरुस्त कर ले। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कहा कि आगामी त्यौहारों को सौहार्द पूर्ण वातावरण में मनाया जाये किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशान को अवगत कराये जिससे कि समय रहते समस्या का निराकरण किया जा सकें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अनाधिकृत तरह की पोस्ट ना की जाये गलत तरीके की पोस्ट करते हुए यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी, उन्होंने कहा कि जिन मार्गो से होकर शोभा यात्रा या मूर्ति विसर्जन यात्रा निकलनी है, उस पर साफ सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया जाये, साथ ही सम्बन्धित मार्गो को भी दुरूस्त करा लिया जाये। सभी पंडालों,शोभा यात्रा मार्गो का पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम भेजकर निरीक्षण करा लिया जाये। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर नजर रखी जाये, उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग की जाये, नवरात्रि, दशहरा के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था हेतु व्यापक प्रबंध किये जाये, बैठक के दौरान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने बैठक में उपस्थित धर्म गुरूओं से सीधा संवाद कर विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की। बैठक में उपस्थित हिन्दू व मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरूओ ने अस्वस्त करते हुए कहा कि वह आगामी त्यौहारो को आपसी भाई-चारें को कायम रखते हुए सौहार्द पूर्ण वातावरण में मनायेगें यदि किसी प्रकार कि कोई समस्या आती है तो उसके सम्बन्ध में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को अवगत करायेगें। बैठक में सभी हिन्दू समुदाय व मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरू पूजा पंण्डालों के आयोजकगण उपस्थित रहें।

स्पोर्ट्स



भारत को नेट रन रेट का रखना होगा ध्यान, कप्तान हरमनप्रीत की चोट ने बढ़ाई टीम की चिंता

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। उसे अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड से 58 रन से हार का सामना करना पड़ा जबकि पाकिस्तान के खिलाफ 106 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसने 18.5 ओवर खेले।भारतीय महिला टीम का टी20 विश्व कप में प्रदर्शन अब तक उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया था, लेकिन दूसरे मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर वापसी की थी। भारत का सामना अब ग्रुप ए के अगले मैच में श्रीलंका से होगा। भारतीय टीम इस मैच में बड़ी जीत दर्ज करके अपने नेट रन रेट में सुधार करने की कोशिश करेगी। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। उसे अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड से 58 रन से हार का सामना करना पड़ा जबकि पाकिस्तान के खिलाफ 106 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसने 18.5 ओवर खेले। भारत की टूर्नामेंट में अभी तक सबसे बड़ी समस्या बल्लेबाजों का लचर प्रदर्शन रहा है विशेषकर शेफाली वर्मा और उपकप्तान स्मृति मंधाना अभी तक टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए हैं। अभी तक दो मैच में 15 और 29 रन बनाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर का गर्दन में चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ खेलना संदिग्ध है जिससे भारत की समस्या और बढ़ गई है। हरमनप्रीत पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच

में बल्लेबाजी करते समय चोटिल हो गई थी और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा था। ऐसी परिस्थितियों में जेमिमा रॉड्रिग्ज, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को बल्लेबाजी में अधिक जिम्मेदारी निभानी होगी। मध्यम गति की गेंदबाज अरुंधति रेड्डी ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में 19 रन देकर तीन विकेट हासिल करके अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन उन्हें अन्य तेज गेंदबाजों रेणुका सिंह और पूजा वस्त्राकर से अधिक सहयोग की जरूरत है। पूजा पिछले मैच में नहीं खेली थी। भारत को श्रीलंका के खिलाफ खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा क्योंकि ग्रुप के अंतिम मैच में उसका सामना ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम से होगा। श्रीलंका के खिलाफ भारत को केवल जीत नहीं बल्कि बड़ी जीत की जरूरत है जिससे कि उसके नेट रन रेट में सुधार हो सके। श्रीलंका को अपने पहले दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा लेकिन भारत उसकी टीम को हल्के से लेने की गलती नहीं करेगा। आंकड़ों में श्रीलंका के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन भारत को इस टीम ने एशिया कप के फाइनल में जख्म दिया था जिसके बाद भारतीय टीम अपने इस प्रतिद्वंदी के खिलाफ सतर्क होकर खेलेगी। भारतः स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रॉड्रिग्ज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, सजीवन संजना, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, आशा शोभना, रेणुका सिंह ठाकुर। श्रीलंकाः विश्मी गुणारत्ने, चामरी अट्टापट्टू (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, निलाक्षी डि सिल्वा, हसिनी परेरा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), सुगंदीका कुमारी, इनोशी प्रियदर्शनी, उदेशिका प्रबोधनी, इनोका रानावीरा।

दूसरे टी20 मैच से पहले बांग्लादेश को लगा झटका, शाकिब के बाद अब इस खिलाड़ी ने किया संन्यास का एलान

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। महमूदुल्लाह बांग्लादेश के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं और उन्होंने 17 वर्षों के लंबे करियर का समाप्त करने का फैसला किया है। अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन के खेल के सबसे छोटे प्रारूप को छोड़ने के बाद बांग्लादेश को यह दूसरा झटका लगा है क्योंकि टीम ने 30 दिन के अंदर टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपने दो स्टार ऑलराउंडर को खो दिया है। बांग्लादेश की टीम भारत के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन उससे पहले ही उसे एक बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज महमूदुल्लाह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारत के खिलाफ चल रही मौजूदा टी20 सीरीज महमूदुल्लाह की अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज होगी।

महमूदुल्लाह ने भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हां, इस सीरीज के बाद मैं टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले रहा हूं। यह पहले से ही तय था। यह इस प्रारूप को छोड़ने का सही समय है और अब मैं वनडे पर ध्यान केंद्रित करूंगा। 38 वर्षीय महमूदुल्लाह बांग्लादेश के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं और उन्होंने 17 वर्षों के लंबे करियर का समाप्त करने का फैसला किया है। अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन के खेल के सबसे छोटे प्रारूप को छोड़ने के बाद बांग्लादेश को यह दूसरा झटका लगा है क्योंकि टीम ने 30 दिन के अंदर टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपने दो स्टार ऑलराउंडर को खो दिया है। बांग्लादेश के इस पूर्व टी20 कप्तान ने 2021 में अपने टेस्ट करियर को अलविदा कहा था। महमूदुल्लाह ने 2007 में केन्या के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू किया था और इसके बाद से ही वह बांग्लादेश टीम का अहम हिस्सा थे। टी20 अंतरराष्ट्रीय के इतिहास में यह किसी खिलाड़ी का तीसरा सबसे लंबा करियर है। महमूदुल्लाह से ज्यादा लंबा करियर शाकिब और जिम्बाब्वे के सीन विलियम्स का रहा है। 139 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में महमूदुल्लाह ने 117.74 के स्ट्राइक रेट से 2395 रन बनाए हैं और 40 विकेट भी झटके हैं।

ब्रायन लारा ने यशस्वी जायसवाल की तारीफ में पढ़े कसीदे, ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर कही ये बात

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। टेस्ट में डेब्यू करने के बाद से यशस्वी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 11 मैचों में 1217 रन बनाए हैं जिसमें तीन शतक शामिल हैं। इसमें से दो दोहरे शतक हैं। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्कोर करने की

उनकी क्षमता ने उन्हें भारत के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी बना दिया है। लारा ने यशस्वी की तारीफ करते हुए कहा, यशस्वी के पास किसी भी हालात में खेलने की क्षमता है। मैंने उसे वेस्टइंडीज में देखा है। ऑस्ट्रेलिया की पिचें अलग होंगी लेकिन अगर आपके भीतर इस तरह की क्षमता है तो आप हर हालात में अच्छा खेल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह अच्छा खेलेगा। यशस्वी और अभिषेक शर्मा, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और काफी युवा हैं। यह दोनों अपने स्टाइल में खेलते हैं और आक्रमक होकर बल्लेबाजी करते हैं। लारा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में कामयाब होने के लिए यशस्वी को कुछ मानसिक सामंजस्य करने होंगे। लारा ने कहा, सामंजस्य यही है कि आपको खुद पर यह भरोसा रखना होगा कि आप हर हालात में अच्छा खेल सकते हैं। वैसे भारत में अब हालात बदल गए हैं। आईपीएल में इतने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आ रहे हैं।

दूसरे दिन का खेल समाप्त, स्टंप तक इंग्लैंड का पहली पारी में स्कोर 96/1, रूट-क्रावले क्रीज पर

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 556 रन का विशाल स्कोर बनाया और मेहमान टीम को शुरुआती झटका दिया। हालांकि, जैक क्रावले ने अर्धशतक जड़ा और जो रूट के

साथ मिलकर पारी को संभालने में सफल रहे।पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। पाकिस्तान की पहली पारी 556 रन पर ऑलआउट हुई थी जिसके जवाब में इंग्लैंड ने स्टंप तक एक विकेट पर 96 रन बनाए हैं। दिन का खेल समाप्त होने के वक्त जैक क्रावले 64 रन और जो रूट 32 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इंग्लैंड को पहला झटका कप्तान ओली पोप के रूप में लगा जो खाता खोले बिना आउट हुए। नसीम शाह ने पोप को आउट कर इंग्लैंड को शुरुआती झटका दिया, लेकिन क्रावले और रूट ने अब तक दूसरे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी कर ली है और टीम को झटके से उबारा। इससे पहले, पाकिस्तान के लिए पहले दिन जहां अब्दुल्लाह शफीक और कप्तान शान मसूद ने शतक जड़े। वहीं, दूसरे दिन मंगलवार को अघा सलमान ने शतक जड़ा। सलमान 104 रन बनाकर नाबाद लौटे। सलमान के अलावा सउद शकील भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वह 82 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के लिए स्पिनर जैक लीच ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके। पाकिस्तान टीम को दूसरे दिन पहला और ओवरऑल पांचवां झटका नसीम शाह के रूप में लगा। उन्होंने 81 गेंद में 33 रन की पारी खेली। नसीम ने अपनी पारी में एक चौका और तीन छक्के लगाए। उन्होंने शकील के साथ पांचवें विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी निभाई। नसीम के आउट होने के बाद मोहम्मद रिजवान खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। ब्राइडन कार्स ने नसीम को, जबकि जैक लीच ने रिजवान को आउट किया। इसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर सऊद शकील भी आउट हो गए। वह शतक से चूक गए। शकील ने 177 गेंद में आठ चौके की मदद से 82 रन की पारी खेली। इसके बाद आमिर जमाल सात रन बनाकर ब्राइडन कार्स का शिकार बने। पाकिस्तान की पारी को इसके बाद सलमान ने शाहीन अफरीदी के साथ मिलकर संभाला, लेकिन लीच ने शाहीन को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा। लीच का यह इस मैच का तीसरा विकेट था। शाहीन 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके कुछ देर बाद जो रूट ने अबरार अहमद को आउट कर पाकिस्तान को ऑलआउट कर दिया। अबरार अंतिम बल्लेबाज के रूप में तीन रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की ओर से लीच के अलावा गस एटकिंसन और ब्राइडन कार्स ने दो-दो विकेट लिए, जबकि क्रिस वोक्स, शोएब बशीर और रूट को एक-एक विकेट मिला। इससे पहले शकील ने टेस्ट करियर का सातवां अर्धशतक लगाया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने चार विकेट पर 328 रन बना लिए थे। अब्दुल्ला शफीक ने 184 गेंद में 10 चौके और दो छक्के की मदद से 102 रन की पारी खेली थी। वहीं, कप्तान शान मसूद ने 177 गेंद में 13 चौके और दो छक्के की मदद से 151 रन की पारी खेली थी।

सरफराज का रणजी ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले में खेलना मुश्किल, न्यूजीलैंड सीरीज में हो सकते हैं शामिल

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। मुंबई के चयनकर्ताओं ने पहले दो मैचों के लिए टीम का चयन किया है। मुंबई को 18

अक्तूबर को महाराष्ट्र के खिलाफ मैच खेलना है और उस दौरान भारत-न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान का बड़ौदा के खिलाफ 11 अक्तूबर से होने वाले रणजी ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले में खेलना मुश्किल है। ईरानी कप में मुंबई को मिली जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सरफराज राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में हैं। मुंबई के चयनकर्ताओं ने पहले दो मैचों के लिए टीम का चयन किया है। मुंबई को 18 अक्तूबर को महाराष्ट्र के खिलाफ मैच खेलना है और उस दौरान भारत-न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 16 अक्तूबर से बेंगलुरु में खेला जाएगा। माना जा रहा है कि इस सीरीज के लिए सरफराज टीम में अपनी जगह बरकरार रखेंगे। ऐसे में उनका रणजी ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले में खेलना मुश्किल होगा। मालूम हो कि सरफराज का बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में संपन्न हुए दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई थी, लेकिन उन्हें दोनों ही मैचों में प्लेइंग-11 में खेलने का मौका नहीं मिला था। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारत ने अब तक टीम घोषित नहीं की है। भारतीय टीम फिलहाल बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। सरफराज ने शेष भारत के खिलाफ पिछले सप्ताह खेले गए ईरानी कप की पहली पारी में दोहरा शतक जड़ा था और अपनी क्षमता साबित की थी।

हरमनप्रीत के श्रीलंका के खिलाफ खेलने पर आई बड़ी जानकारी उपकप्तान मंधाना ने दिया बयान

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना ने मैच से पहले मंगलवार को कहा कि कप्तान

हरमनप्रीत कौर महिला टी20 विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ अगले मैच के लिए फिट हैं। भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से हराया लेकिन न्यूजीलैंड से पहला मैच हारने के बाद टूर्नामेंट से जल्दी बाहर होने का खतरा है। भारतीय महिला टीम को श्रीलंका के खिलाफ टी20 विश्व कप का मुकाबला खेलना है, लेकिन उसके लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर की चोट चिंता का विषय बनी हुई है। हरमनप्रीत पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बल्लेबाजी करते समय चोटिल हो गई थी और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा था। भारतीय कप्तान के गर्दन में चोट लगी थी। हालांकि, अब टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने हरमनप्रीत की फिटनेस पर अपडेट दिया है। भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना ने मैच से पहले मंगलवार को कहा कि कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला टी20 विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ अगले मैच के लिए फिट हैं। भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से हराया लेकिन न्यूजीलैंड से पहला मैच हारने के बाद टूर्नामेंट से जल्दी बाहर होने का खतरा है। ऑलराउंडर पूजा वस्त्राकर की फिटनेस को लेकर कोई जानकारी नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेली थी। मंधाना ने कहा, हरमन ठीक हैं और श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलेंगी। पूजा पर मेडिकल टीम काम कर रही है। उसके बारे में जानकारी बुधवार को ही मिल सकेगी।' मंधाना अभी तक टूर्नामेंट में अपेक्षा के अनुरूप नहीं खेल सकी हैं। भारत को अब श्रीलंका से खेलना है जिसने उसे एशिया कप फाइनल में हराया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से मैच अभी बाकी है। मंधाना ने कहा, यहां के हालात उससे बहुत अलग है जैसा हमने सोचा था। हम संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्लेबाजों को चतुराई से खेलना होगा। आंकड़ों पर श्रीलंका पर भारी है भारत का पलड़ा भारत को श्रीलंका के खिलाफ खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा क्योंकि ग्रुप के अंतिम मैच में उसका सामना ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम से होगा। श्रीलंका के खिलाफ भारत को केवल जीत नहीं बल्कि बड़ी जीत की जरूरत है जिससे कि उसके नेट रन रेट में सुधार हो सके। श्रीलंका को अपने पहले दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा लेकिन भारत उसकी टीम को हल्के से लेने की गलती नहीं करेगा। आंकड़ों में श्रीलंका के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन भारत को इस टीम ने एशिया कप के फाइनल में जख्म दिया था जिसके बाद भारतीय टीम अपने इस प्रतिद्वंदी के खिलाफ सतर्क होकर खेलेगी।

राशि फल

मेष कुछ कार्य जिसकी पिछले कुछ दिनों से प्लानिंग चल रही है, आज शुरू हो सकता है, जिससे आपको आर्थिक स्थिति में लाभ होगा। व्यापार-व्यवसाय में परिवर्तन की योग बन रहे हैं

वृषभ आज का दिन अच्छा है। परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है। आपके स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। व्यापार आदि में सहयोगी पार्टनर के माध्यम से आय के नए स्रोत बनेंगे

मिथुन किसी कार्य विशेष को लेकर आज यात्रा आदि पर बाहर जा सकते हैं। यात्रा में सावधानी बरतें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही परिवार में किसी अपने के स्वास्थ्य से आप चिंतित रह सकते हैं।

कर्क आज आप व्यर्थ की भागदौड़ से परेशान हो सकते हैं। आपका मन अशांत रहेगा। कार्य की अधिकता के कारण थकावट आदि महसूस होगी।

सिंह आज आप मानसिक रूप से उलझे रहेंगे। किसी बात को लेकर परिवार में परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन आप अपनी कुशलता से उसे हल करने में सफल होंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

कन्या नौकरी आदि के लिए यदि प्रयास कर रहे है तो, आज आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, परंतु परिवार में माता-पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।

तुला आज आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य न होने से आप मानसिक तौर से परेशान रह सकते है। आर्थिक स्थिति के कारण आपको किसी से मदद मांगनी पड़ सकती है। व्यापार-व्यवसाय में भी इस समय गिरावट महसूस होगी।

वृश्चिक आज आप पतनै के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रहेंगे। परिवार के लोग सहयोग करेंगे। व्यापार-व्यवसाय में अपने साथियों के विरोध के कारण आपको बड़ा नुकसान हो सकता है।

धनु स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। साथ ही नौकरी आदि में अधिकारी वर्ग से मतभेद बढ़ने से आपकी परेशानी बढ़ेगी।

मकर आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। किसी अपने के द्वारा आपको कार्यक्षेत्र में बड़ा काम मिल सकता है, जिस कारण मन प्रसनन रहेगा।

कुंभ आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मानसिंक शांति रहेगी लेकिन असंतोष भी रहेगा। परिवार में शांति बनी रहेगी। पिता का सहयोग मिलेगा।

मीन मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। आत्मविश्वास बन रहेगा। शिक्षा से जुड़े काम सफल होंगे।

ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दर्ज की बड़ी जीत, मेगन और सदरलैंड की शानदार गेंदबाजी

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 148 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19.2 ओवर में 88 रनों पर सिमट गई। बेथ मूनी की शानदार पारी के बाद मेगन शट और एनाबेल सदरलैंड की बेहतरीन गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में न्यूजीलैंड को 60 रनों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 148 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19.2 ओवर में 88 रनों पर सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने शुरुआत से विकेट गंवाए। न्यूजीलैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज सुजी बेट्स और शीर्ष क्रम की बल्लेबाज अमेलिया केर ने कुछ सधी हुई पारियां खेली। केर

ने 31 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से सर्वाधिक 29 रन बनाए, जबकि बेट्स ने 27 गेंदों पर 20 रनों की पारी खेली। इन दो बल्लेबाजों के अलावा लिआ ताहुहू ही दहाई अंक तक पहुंच सकीं, जिन्होंने 11 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए शट और सदरलैंड ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि सोफी मोलिनेक्स ने दो और जॉर्जिया वारेहम तथा ताहिला मैक्ग्रा को एक-एक विकेट मिला। इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और कप्तान एलिसा हीली ने बेथ मूनी के साथ टीम को अच्छी शुरूआत भी दी। हीली ने 20 गेंद में 26 और मूनी ने 32 गेंद में 40 रन बनाए। इन दोनों के आउट होने के बाद हालांकि एलिसे पेरी (30) को छोड़कर कोई बल्लेबाज टिक नहीं सकी। न्यूजीलैंड के लिए लेग स्पिनर अमेलिया केर ने चार ओवर में 26 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि रोसमेरी मायर और ब्रूक हालीडे को दो-दो विकेट मिले।

सम्पादकीय

वोटरों ने भाजपा को दी बूस्टर डोज, कांग्रेस के हाथ फिर लगी हताशा

भाजपा को बहुत बड़ा फायदा अहीरवाल क्षेत्र, जिसमें गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नारनौल जिले आते हैं, में हो रहा है। भाजपा वर्ष 2014 से अहीरवाल क्षेत्र में मजबूत रही है। इसका एक बड़ा कारण केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी हैं। राव इंद्रजीत सिंह जब तक कांग्रेस में थे, तब तक अहीरवाल क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत थी, वो जब से भाजपा में आए हैं, इस क्षेत्र में भाजपा मजबूत हो गई है। एक्जिट पोल एकबार फिर फेल साबित हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी भविष्यवाणियों को झूठलाते हुए भाजपा जीत की हैट्रिक लगाती दिख रही है। सुबह शुरुआती रुझानों में भले भाजपा कांग्रेस से बहुत पीछे थी, लेकिन सुबह साढ़े नौ बजे के बाद उसने ऐसा कमबैक किया, जिसने सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। हरियाणा के रुझान यदि नतीजों में बदलते हैं तो भाजपा को एक बूस्टर डोज यहां से मिलने वाली है। एक नए उत्साह का संचार पार्टी में होने वाला है। निश्चित ही इसका प्रभाव आगामी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। खत्री पंजाबी के बजाय ओबीसी पर दांव लगाया था। तब यह माना जा रहा था कि सैनी को बलि का बकरा बना दिया गया है, लेकिन अब रुझानों से साफ हो गया है कि भाजपा का ओबीसी कार्ड सही साबित हुआ।भाजपा को बहुत बड़ा फायदा अहीरवाल क्षेत्र, जिसमें गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नारनौल जिले आते हैं, में हो रहा है। भाजपा वर्ष 2014 से अहीरवाल क्षेत्र में मजबूत रही है। इसका एक बड़ा कारण केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी हैं। राव इंद्रजीत सिंह जब तक कांग्रेस में थे, तब तक अहीरवाल क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत थी, वो जब से भाजपा में आए हैं, इस क्षेत्र में भाजपा मजबूत हो गई है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में जाट क्षेत्र, जिसमें रोहतक, झज्जर और सोनीपत आते हैं, से काफी अच्छा समर्थन मिला था। इन जिलों में जाट मतदाताओं की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह प्रभाव वाला क्षेत्र है। हुड्डा के कारण कांग्रेस पिछली चुनाव में 31 सीटें जीतने में सफल रही थी, लेकिन केवल जाट वोटों के सहारे कांग्रेस की नैया पार होती नहीं नजर आ रही। यदि हरियाणा में जातीय समीकरणों को देखें 22 प्रतिशत जाट, 20 प्रतिशत दलित, 30 प्रतिशत ओबीसी, 16.5 प्रतिशत जनरल, 8 प्रतिशत पंजाबी और 3.5 प्रतिशत मुस्लिम वोट हैं। जब कांग्रेस के पक्ष में जाट मतदाता लामबंद हुए तो बाकी जातियों ने गुपचुप भाजपा के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के पास जाट वोटों के अलावा दलित और मुस्लिम वोट भी हैं, लेकिन चुनाव के रुझान बता रहे हैं कि भाजपा ने कांग्रेस के दलित वोट में सेंध लगा दी है। ऐसे में कुमारी शैलजा का महत्व कांग्रेस में बढ़ाने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अब केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भरोसे हरियाणा को नहीं जीत सकती, यह बात उसे समझ में आ रही होगी। भाजपा की सोशल वेलफेयर स्कीम्स और महिलाओं को लेकर चलाई जा रही योजनाओं ने काफी काम किया है। महिलाओं का ऐसा विषय है, जिसे किसी भी सर्वे या एक्जिट पोल ने उस तरीके से नहीं उठाया, जैसा उठाया जाना चाहिए था। यह माना जा रहा है कि महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में बिना शोर मचाए वोट किया है, जैसा मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। एक और मुद्दा जो राहुल गांधी ने अपनी हर सभा में उठाया, वो अग्निवीर स्कीम का है। हरियाणा में इस मुद्दे को इसलिए भी बड़ा बताया जा रहा था, क्योंकि हरियाणा से सेना में बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। अब अग्निवीर का मुद्दा थोड़ा धीमा होगा, यह दिख रहा है। किसान या पहलवान के मुद्दे भी कांग्रेस के बहुत काम नहीं आए हैं। वैसे हरियाणा में इस चुनाव में राहुल गांधी प्रचार से थोड़ा दूर रहे। वो अंतिम तीन दिन ही प्रचार में उतरे। बहुत कम चुनावी सभाएं कीं। उनके मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में अधिक सभाएं कीं। ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत हरियाणा में लगा दी थी। यदि दूसरी पार्टियों की बात करें तो इनेलो, आम आदमी पार्टी और बसपा ने कहीं न कहीं कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाई है।आम आदमी पार्टी कांग्रेस से चुनाव पूर्व समझौता चाहती थी, जिसे कांग्रेस ने नकार दिया था। आम आदमी पार्टी को 1.65 प्रतिशत के आसपास वोट मिल रहे हैं, जबकि इनेलो 4.52 प्रतिशत वोट ले रही है और बसपा ने भी 1.63 प्रतिशत के आसपास वोट लिया है।

भाजपा का नया गढ़ हरियाणा और कश्मीर में लोकतंत्र की सुखद वापसी

कांग्रेस की दृष्टि से देखें तो लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण बचाने तथा जाति जनगणना का जो नरेटिव कुछ राज्यों में जबर्दस्त ढंग से काम कर गया था, वो इन विधानसभा चुनाव में फेल रहा। इन नतीजों का कांग्रेस के लिए सबक यह है कि अगर राज्यों में किसी एक नेता पर आंख मूंद कर भरोसा कर कमान उसके हाथ में देने और बाकी की उपेक्षा की जाए तो खेल बिगड़ जाता है। लोकसभा चुनाव के ठीक चार महीने बाद हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों से कुछ संकेत साफ हैं। पहला तो यह कि देश में गुजरात और मध्यप्रदेश के बाद हरियाणा ऐसा राज्य बन गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। यानी उत्तर भारत में हरियाणा भाजपा का नया मजबूत किला बन गया है।नतीजों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उस भविष्यवाणी को भी हकीकत में बदल किया कि हरियाणा में कांग्रेस का हश्र मध्यप्रदेश जैसा ही होगा, वैसा हुआ भी। दूसरा, लोस चुनाव के नतीजों से सबक लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति में कई बदलाव किए, जिसमें टिकटों के बंटवारे से लेकर बाहरी नेताओं का समावेश और वोटों का प्रति जाट ध्रुवीकरण शामिल है। नतीजों ने यह भी साबित किया कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने किसान, जवान और पहलवान का जो नरेटिव सेट किया था, वह सतही था। राज्य में ओबीसी जातियों का यह डर भाजपा के पक्ष में काम कर गया कि यदि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो जाटों की दबंगई फिर शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो दलित लोस चुनाव में कांग्रेस की तरफ बड़े पैमाने पर चले गए थे, वो इस बार बंट गए और फायदा भाजपा को मिला।यही स्थिति जाट वोटों की भी रही। इसके विपरीत कांग्रेस की कोई सुस्पष्ट रणनीति नहीं दिखी, सिवाय इस भरोसे के कि जनता इस बार उसे जिताने के लिए तैयार बैठी है। दूसरे राज्य के प्रभावशाली और मुखर जाट समुदाय की नाराजी को जनता की नाराजी मान लेना भी गलती थी। कांग्रेस की दृष्टि से देखें तो लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण बचाने तथा जाति जनगणना का जो नरेटिव कुछ राज्यों में जबर्दस्त ढंग से काम कर गया था, वो इन विधानसभा चुनाव में फेल रहा। इन नतीजों का कांग्रेस के लिए सबक यह है कि अगर राज्यों में किसी एक नेता पर आंख मूंद कर भरोसा कर कमान उसके हाथ में देने और बाकी की उपेक्षा की जाए तो खेल बिगड़ जाता है।यह हम इसके पहले मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में देख चुके हैं, जहां पार्टी ने क्रमशः कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल पर असंदिग्ध भरोसा किया और हाथ आती सत्ता फिसल गई।इन परिणामों का कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के लिए बड़ा सबक यह है कि जब तक वो संगठन को ऊपर से नीचे तक नहीं कसेंगे, उसमें लडाकू तेवर पैदा नहीं करेंगे, तब तक छुटपुट सफलताओं से ज्यादा हासिल कुछ नहीं होगा। मोदी और भाजपा को हिलाना इतना आसान नहीं है लोस में भाजपा द्वारा संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने वाला दांव विधानसभा चुनावों में इस नहीं चल पाया, क्योंकि वो नरेटिव एक आशंका पर ज्यादा आधारित था। हकीकत में वैसा कुछ हुआ नहीं और शायद होगा भी नहीं। हरियाणा विस चुनाव के नतीजे काफी कुछ 2023 में हुए मप्र विस चुनाव से मिलते हैं। मप्र में भी कांग्रेस माने बैठी थी कि जनता उसे ही जिताने वाली है। यहां तक कि जीतने के बाद कौन क्या बनेगा, यह भी एडवांस में तय हो गया था। पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस की बढ़त को पार्टी ने कुछ देर के लिए पूरा सच मान लिया। जबकि भाजपा ने बूथ मैनेजमेंट, लाडली बहना योजना और अपनी सफल चुनावी रणनीति से कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया। कुछ ऐसा ही हरियाणा में होता दिख रहा है।भाजपा सरकार के प्रति 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद लोस चुनाव से पहले ओबीसी नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर पार्टी ने जहां लोस चुनाव में हुए राजनीतिक नुकसान को कम किया, वहीं विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार कर दी। खास बात यह है कि हरियाणा में विस चुनाव के पहले भाजपा ने ऐसी कोई बड़ी रेवड़ी भी नहीं बांटी, जैसे कि मप्र में बांटी थी। भाजपा की रणनीति साफ थी कि प्रभावशाली जाट वोटों का बंटवारा करो और एंटी जाट वोटों को भाजपा के पक्ष में गोलबंद करो। वही होता दिख भी रहा है। पार्टी ने न केवल अपना वोट बैंक बचाया बल्कि उस जाट लैंड में भी सेंध लगा दी, जहां से कांग्रेस बंपर समर्थन की उम्मीद लगाए हुए थी।हरियाणा के यादव बहुल अहीरवाल अंचल में भाजपा की भारी जीत के पीछे भाजपा द्वारा मप्र में एक यादव डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना भी बड़ा कारण हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बेरोजगारी, किसान आंदोलन, अग्निवीर जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें खास तवज्जो नहीं दी। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वोटर इन मुद्दों पर अपनी राय लोस चुनाव में पहले ही व्यक्त कर चुका था। अति आत्मविश्वास भी कांग्रेस को ले डूबा। हालांकि यह कहना कठिन है कि अगर वो दूसरी जाट पार्टियों और आप के साथ गठबंधन करती तो नतीजे बदल सकते थे। लेकिन चुनाव के दौरान दलित नेता कुमारी सैलजा की नाराजी कांग्रेस को डुबो गई। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने सैलजा को मनाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।सत्ता पाने से ही सीएम पद की लड़ाई का जनता में गलत संदेश गया। वैसे यह लड़ाई भाजपा में भी दिखी। वहां अनिल विज ने सीएम पद की दावेदारी ठोक दी थी, लेकिन उसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। यह तय है कि सीएम का ताज नायब सिंह सैनी को मिलेगा। यानी मप्र की तर्ज पर भाजपा हरियाणा में फिर ओबीसी कार्ड ही खेलेगी।उधर जम्मू-कश्मीर में भाजपा का सरकार बनाने का सपना दूर की कौड़ी ही था। वहां चुनाव जीतते ही सत्ता में आ रहे नेशनल कांफ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के नेता फारूख अब्दुल्ला ने कहा कि यह जनादेश राज्य से धारा 370 व 35ए हटाने और भाजपा के खिलाफ है। इससे स्पष्ट हो गया कि जम्मू कश्मीर में आगे भी टकराव की राजनीति होने वाली है।इस मामले में कांग्रेस दुविधा में रहेगी, क्योंकि वह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मुद्दे पर चुप है, लेकिन प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की हामी है। दरअसल बीजेपी प्रदेश में शांति, अमन, पर्यटन को बढ़ावा जैसे मुद्दों पर घाटी में भी समर्थन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मुसलमानों में भाजपा के प्रति जो नाराजी है, वह खत्म नहीं हुई है। अलबत्ता 2014 के विधानसभा चुनाव की तुलना में राज्य में बीजेपी की सीटें और वोट दोनों बढ़े हैं। लेकिन बीजेपी के साथ कभी सरकार बनाने वाली महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का सफाया और भाजपा ने घाटी में निर्दलियों के समर्थन से सरकार बना सकने की संभावना पर नतीजो ने पानी फेर दिया है। अच्छी बात यह है कि जम्मू-कश्मीर के मतदाताओ ने अलगाववादी निर्दलीयों और अन्य पार्टियों को चुनने की जगह नेकां-कांग्रेस गठबंधन को समर्थन दिया। जिससे सरकार पांच साल तक चलने की उम्मीद ज्यादा है।धारा 370 हटाने की मांग नेकां के घोषणा पत्र में जरूर है, लेकिन उसे भी पता है कि यह अब व्यावहारिक नहीं है। लिहाजा उसका जोर पूर्ण राज्य के दर्जे को ही नकारते थे, वो मजबूरी में ही सही पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लौट रहे हैं। एक बात साफ है कि राज्य में जो संवैधानिक बदलाव किए गए हैं, उसका राजनीतिक और सामाजिक असर भी हमे जल्द दिखाई देगा। इस बात की संभावना कम है कि जम्मू कश्मीर की अवाम आए दिन आंतकी हमलों, पत्थरबाजी और बंद के दौर में लौटना चाहेगी। इन नतीजों ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर फिर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जम्मू कश्मीर में तो नतीजों सर्वे के हिसाब से आए हैं, लेकिन हरियाणा में तमाम सर्वे फेल हुए हैं। राजनेताओं को भी समझ आ गया है कि सर्वे के आधार पर मन में लड्डू भले फूट रहे हों, लेकिन हकीकत में पूरे नतीजे आने के बाद ही लड्डू खाना और बांटना चाहिए।

शारदीय नवरात्रिः खुलेंगे उन्नत के द्वारा करें मां महागौरी की उपासना जाने पूजा विधि, मंत्र, भोग और पौराणिक कथाए

शारदीय नवरात्रि के पर्व के दौरान अष्टमी तिथि का बड़ा महत्व माना जाता है। कई भक्त इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। साथ ही इस दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय भी हैं, जो आपको जीवन में सुख-समृद्धि और माता की कृपा दिलाते हैं। इन कार्यों को करने से जीवन की कई मुश्किलों से आपको छुटकारा मिल सकता है। आज इन्हीं उपायों के बारे में हम आपको अपने इस लेख में जानकारी देंगे। आचार्य पंडित सुधांशु तिवारी प्रश्न कुण्डली विशेषज्ञ/ ज्योतिषाचार्य नवरात्रि की अष्टमी तिथि को जलाएं घी का दीपक शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को है। इस दिन अगर आप पूजा के दौरान गाय के घी का दीपक जलाते हैं, तो माता की कृपा आप पर बरसती है। गाय का दीपक जलाने के साथ ही इस दिन आपको माता के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। यह आसान सा उपाय आपके जीवन में धन-धान्य की वृद्धि करता है, साथ ही करियर के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होने लग जाती है। माता महागौरी का स्वरूप देवी महागौरी की चार भुजाएँ हैं और वे वृषभ की सवारी करती हैं। वे दाहिने एक हाथ से अभय मुद्रा धारण की हुईं हैं, वहीं दूसरे दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएँ एक हाथ में डमरू तथा दूसरे बाएँ हाथ से वे वर मुद्रा में है। पौराणिक मान्यताएँ पौराणिक मान्याताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए गर्मी, सर्दी और बरसात का बिना परवाह किए कठोर तप किया था जिसके कारण उनका रंग काला हो गया था। उसके बाद शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया जिसके बाद देवी का रंग गोरा हो गया। तब से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। मंत्र ॐ देवी महागौर्यै नमः? प्रार्थना मंत्र श्वेते वृषेसमारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः। महागौरी शुभं दद्यान्महादेव प्रमोददा? स्तुति या देवी सर्वभू?तेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः? ध्यान मंत्र वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्। सिंहारूढा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीम्पूर्णन्दु निभाम् गौरी सोमचक्रस्थिताम् अष्टमम् महागौरी त्रिनेत्राम्। वराभीतिकरां त्रिशूल डमरूधरां महागौरी भजेम् पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्। मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल मण्डिताम्? प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् त्रैलोक्य मोहनम्। कमनीयां लावण्यां मृणालां चन्दन गन्धलिप्ताम्? स्त्रोत सर्वसङ्कट हन्त्री त्वंहि धन ऐश्वर्य प्रदायनीम्। ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्? सुख शान्तिदात्री धन धान्य प्रदायनीम्। डमरूवाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्यहम्? त्रैलोक्यमल त्वंहि तापत्रय हारिणीम्। वददम् चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्? यह उपाय खोलेगा उन्नति के द्वार अगर आपके काम बार-बार अटकते हैं, करियर-कारोबार में आपको मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि के आठवें दिन आपको सिंदूर से जुड़ा एक उपाय करना चाहिए। आपको करना बस इतना है कि, सिंदूर के साथ एक सुपारी लेकर इसे माता महागौरी को अर्पित कर देना है। पूजा समाप्ति के बाद सिंदूर और सुपारी को लेकर घर के मुख्य दरवाजे के पास आप रखें। मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से माता आपके घर में प्रवेश करती हैं। यह उपाय उन्नति के द्वार खोलने वाला माना जाता है। साथ ही धन लाभ भी आपको यह उपाय करने से मिलता है।

नो लुक शॉट' के बाद हार्दिक पांड्या के रिएक्शन से इंटरनेट पर मचा तहलका

ग्वालियर में रविवार रात टीम इंडिया के ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या के खेले 'नो लुक शॉट' ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद के 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक ने यह शॉट खेला और अगली दो गेंदों पर चौका व छक्का लगाकर टीम इंडिया को मेहमान टीम के खिलाफ पहला टी-20 मुकाबला जीता दिया। वैसे तो मॉडर्न क्रिकेट में 'नो लुक शॉट' खेलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ग्वालियर में खेले गए 'नो लुक शॉट' के बाद जैसा रिएक्शन हार्दिक पांड्या का रहा, वैसा संभवतः आज तक किसी भी बैट्समैन ने नहीं दिया है।दरअसल, जब भी कोई बल्लेबाज शॉट खेलने के बाद गेंद की तरफ नहीं देखता, उसे 'नो लुक शॉट' यानी बिना देखे खेला शॉट कहते हैं। अक्सर 'नो लुक शॉट' पर बल्लेबाज छक्का लगते हैं, लेकिन तस्कीन अहमद के खिलाफ 'नो लुक शॉट' में हार्दिक ने विकेटकीपर के पीछे चौका लगाया। इस शॉट के बाद क्रिकेट जगत में हार्दिक पांड्या के मूवमेंट को धमाके से शेयर किया जाने लगा। क्रिकेट प्लेयिंग नेशंस में हर तरफ हार्दिक पांड्या के इस शॉट की चर्चा हो रही है। वैसे, भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल, अफगानिस्तान के ऑल राउंडर राशिद खान, भारत के मौजूदा टी-20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ऐसे नामचीन खिलाड़ी हैं, जिनके 'नो लुक शॉट' को बेहतरीन माना गया है। राशिद खान ने जब शारजाह में आयरलैंड के खिलाफ 'नो लुक शॉट' पर छक्का लगाया था, तब भी इंटरनेट पर तहलका मच गया था। आईपीएल जैसी लीग्स में अक्सर बैट्समैन यह शर्ट खेलते हैं। हार्दिक पांड्या ने ग्वालियर में छक्का लगाकर टीम को जीताकर एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वो टी-20 में छक्का लगाकर टीम इंडिया को जिताने में सबसे आगे हो गए हैं। हार्दिक अब तक भारत को पांच बार छक्का लगाकर जीत दिला चुके हैं, जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने चार बार छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत ऐसा तीन-तीन बार कर चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भारत के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने डेब्यू किया और वो भारत की तरफ से तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने डेब्यू के पहले ओवर को मेडन कराया है। उनसे पहले केवल अजीत आगरकर दक्षिण अफ्रीका और अर्शदीप सिंह इंग्लैंड के खिलाफ यह कमाल कर पाए थे। ग्वालियर के टी-20 मैच में अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ही ओवर में विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार के बाद टीम इंडिया की ओर से ऐसा करने वाले खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर नाम दर्ज कर लिया है। टी-20 में अपने पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार 18 बार विकेट ले चुके हैं, जबकि अर्शदीप ने ऐसा चौथी बार किया। रविचंद्रन अश्विन भी ऐसा चार बार कर चुके हैं, जबकि आशीष नेहरा, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर और हार्दिक पांड्या ने ऐसा तीन-तीन बार किया है। ग्वालियर में जीत के साथ ही भारत ने टी-20 सीरीज में 1-0 से बांग्लादेश पर बढ़त बना ली है। अब अगला मुकाबला 9 अक्टूबर को दिल्ली में होगा, जिसमें भारत की दर्ज कर सीरीज को जीतने की कोशिश रहेगी। वैसे, टेस्ट सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं।

ADHUNIK TUTORIALS

" FOR THE STUDENTS, FROM A STUDENT "

FOR CLASSES 1st 5th

(ADMISSION OPEN)

FACILITIES

- Air Conditioned & Well Furnished Classroom
- Water Cooler Available
- Hygienic Washrooms
- CCTV for Safety Purposes
- In Campus Parking

Dr. (Er)PuneetArora (HON. DIRECTOR)
(B.Tech, M. Tech, MBA , Ph.D)
Awarded with ' Young Scientist & Best Teachers, Author of Many Books Chapters, Research Paper, Patent & Trademarks

Ms.Nilanjana Arora (Assistant Director)

- Ex. Student of Bethany Convent School, Bishop Johnson School & College, Girl's High School & College
- Pursuing B.Tech
- Awarded by TCS
- Certification in the Field of Web Development and Machine Learning .

Ms. Riya Arora (Counsellor)

- Ex. Student of Delhi Public School.
- Subject Topper of Delhi Public School
- Pursuing LLB from University of Allahabad .

Address: B-Block, ADA Colony, Mtek Campus, Naini, Prayagraj .

Contact :- Call and Whatsapp: 8542919234

सपाइयों ने मनाई गरीबों के मसीहा मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि

(आधुनिक समाचार नेटवर्क)

सोनभद्र । बुधवार को समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय सोनभद्र पर गरीबों के मसीहा मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर

पुष्प अर्पित करते हुए शत-शत नमन किया गया और गोष्ठी का आयोजन किया गया । जिसकी अध्यक्षता पार्टी जिला अध्यक्ष राम निहोर यादव ने किया और संचालन जिला महासचिव मोहम्मद सईद कुरैशी ने किया । गोष्ठी को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष राम निहोर यादव ने कहा कि गरीबों के मसीहा मान्यवर काशीराम हमेशा गरीबों नौजवानों अल्पसंख्यक और हर समाज के दबे कुचले की लड़ाई लड़ने का काम किया और उनके हक को दिलाने के लिए अपने जीवन काल को बलिदान करने का काम किया । मान्यवर काशीराम यह ऐसे महापुरुष थे जो अपने जीवन काल में हमेशा गरीबों का लड़ाई लड़ने का काम किया । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं लेकिन वहीं भाजपा सरकार केवल पूंजी पतियों की लड़ाई लड़ रही है और हर वर्ग के गरीबों का शोषण कर रही है । इस भाजपा सरकार को किसी गरीब जनता से कोई लेना-देना नहीं है । इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष संजय यादव जिला उपाध्यक्ष अशोक पटेल सुरेश यादव डॉक्टर लोकपति सिंह पटेल अनिल प्रधान राधा सिंह कुमारी मंदाकिनी पांडे कुमारी निधि पांडे महिला सभा जिला अध्यक्ष गीता गौर रमेश कुमार बागी राजकुमार संघर्षि फारूक अली जिनाली पारब्रह्म सिंह सरदार जितेंद्र बियार राजनाथ यादव रमेश यादव लल्लू भारती राजमणि गायक गुलाम यासीन सुशील राय निरंजन कुमार रवीना रानी अलका कुमारी वकील निशा सबी बानो पंचदेव सिंह खरवार तौफीक अली शौर्य त्रिपाठी अफरोज खान दीनानाथ अग्रवाल बचोले प्रसाद पटेल सत्यम पांडे शेरा अली के साथ सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित थे ।

भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी ने मनाया परिनिर्वाण संकल्प दिवस

(आधुनिक समाचार नेटवर्क)

सोनभद्र । भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी सोनभद्र के बैनर तले बहुजन मसीहा मान्यवर कांशीराम

साहब के 18वे परिनिर्वाण संकल्प दिवस के रूप में राबर्ट्सगंज के पुसौली अंबेडकर पार्क में फोटो पर पुष्प अर्पित कर मनाया गया। जिलाध्यक्ष रविकांत ने कहा बहुजन समाज में नई रोशनी जगाने वाले बहुजन मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चला कर 6743 जातियों को एक धागे में बांधने का काम किया, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दिया गया अधिकार को बताने का काम किया शोषित पीड़ित वंचित समाज को उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार अपने संघर्ष के बदौलत बनाए, और बहुजन महापुरुषों के मिशन को फिर पुनर्जीवित करने का काम किया मान्यवर कांशीराम साहब ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नही चलेगा नहीं चलेगा, इतना ही नही मान्यवर साहब ने अपने संघर्ष के बल पे राष्ट्रीय पार्टियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया,और साहब ने कहा कि ये बहुजन समाज के लोगों तुम्हारी संख्या 90 फीसदी है तुम लोग अपने एक वोट के कीमत को पहचाने और इस देश का शासक बनो।जिला प्रभारी संदीप बौद्ध ने कहा, मान्यवर कांशीराम साहब का जीवन संघर्ष ही हम बहुजनों को अपने जीवन में आत्मसाद करना चाहिए और कांशीराम साहब के जैसा संघर्ष करना चाहिए एवं उनके बताए गए मार्ग पर सभी बहुजनों को चलने की जरूरत है। वर्तमान समय में सांसद एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद व भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम के विचार धारा पर चलने वाली पार्टी व संगठन हैं।उपस्थित लोग, जिलाउपाध्यक्ष संजय भारती, जिला महासचिव। अरुण कुमार, संगठन मंत्री रविशंकर प्रसाद, मंजेश सुमन, प्रवक्ता भीम आर्मी, जिला सचिव सुरेंद्रनाथ मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष कमलेश कुमार, नगर अध्यक्ष हीरा लाल, सुभाष भारती, महेश, राजाराम, और भरी संख्या में मौजूद रहे।

पिपरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता 50 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब

(आधुनिक समाचार नेटवर्क)

सोनभद्र । बुधवार को थाना स्थानीय पर पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियो की गिरफ्तारी के हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक मुख्या कालू

सिंह व क्षेत्राधिकारी पिपरी अमित कुमार के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह थाना पिपरी के कुशल नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री व तस्करी के रोकथाम हेतर थाना पिपरी से 03 टीमो का गठन किया गया। जिसमें थाना पिपरी की टीम नं. 01 के द्वारा (01 नफर अभियुक्ता गुड़?डी देवी पत्नी चरखू अगरिया निवासी धरिकार बस्ती पद्यमिनी होटल के पिछे मुर्धवा थाना पिपरी जनपद सोनभद्र के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब, तथा थाना पिपरी की टीम-02 के द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. रामदेव अगरिया पुत्र स्व0 जयकरन अगरिया निवासी लौहवन थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र, 2. प्रेमचन्द्र अगरिया पुत्र जानकी अगरिया निवासी अहिरबुडवा टोला मनरू थाना बभनी सोनभद्र के कब्जे से 10-10 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब, तथा थाना पिपरी की टीम नं. 03 के द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. रामदेव अगरिया पुत्र राम औतार अगरिया निवासी ग्राम बलियरी थाना म्योरपुर सोनभद्र, 2. राजेश अगरिया पुत्र रघु अगरिया निवासी पद्यमिनी होटल के पिछे अगरिया बस्ती मुर्धवा रेनुकूट थाना पिपरी सोनभद्र के कब्जे से 10-10 लीटर अबैध कच्ची देशी शराब बरामद की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर विभिन्न धारा का अभियोग पंजीकृत किया गया।

बॉलीवुड/टेली मसाला

पिता को पहली बार नेशनल अवॉर्ड मिलने पर भावुक हुईं यौमी गौतम, बोलीं- सबको आप पर गर्व है पापा

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)
नई दिल्ली। यामी गौतम ने टीवी सीरियल 'चांद के पार चलो' और 'ये प्यार न होगा कम' से अभिनय की शुरुआत की है। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 'विक्की डोनर' फिल्म से की है। अभिनेत्री ने अपने दम पर आज इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली है। अब हाल ही में, यामी गौतम अपने पिता और फिल्म निर्माता मुकेश गौतम को पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने पर अभिनेत्री ने खुशी जाहिर की है और बताया है कि पूरा परिवार उनके पिता पर गर्व कर रहा है यामी गौतम के पिता को उनकी फिल्म बागी दी धी के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म का पुरस्कार मिला। मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। यामी ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता के लिए एक भावुक पोस्ट शेयर की। अभिनेत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकीं, लेकिन उन्होंने अपने पिता को पुरस्कार लेते हुए देखने के इस खास पल को कैद कर लिया और अपने इंस्टाग्राम पर क्लिप पोस्ट कर दी। टेलीविजन पर समारोह देख रही यामी ने लाइव टेलीकास्ट की तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने लिखा, ठयह बहुत भावुक पल था, क्योंकि मेरे पिता मुकेश गौतम को उनकी फिल्म - बागी दी धी के लिए निर्देशक के रूप में पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।यामी ने कहा, ठभावनाओं को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। मेरे पिता का यहां तक का सफर मेरे द्वारा देखे गए सबसे कठिन सफरों में से एक रहा है, फिर भी यह उन्हें काम के प्रति उनकी मेहनत और नैतिकता में अपार ईमानदारी से नहीं रोक सका। उन्होंने कहा कि अपने पिता को मंच पर देखकर वह बहुत भावुक हो गईं, साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पिता पर बहुत गर्व है अभिनेत्री

जिगरा इवेंट में आलिया भट्ट ने गाया टी अंतावा', सामंथा रुथ प्रभु को बताया 'हीरो'

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने हाल ही में हैदराबाद में अपनी आगामी फिल्म जिगरा के प्री-रिलीज इवेंट में साउथ अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु की जमकर तारीफ की साथ ही उन्हें एक हीरो बताया। इसके अलावा आलिया ने सामंथा को उनकी फिल्म जिगरा को प्रमोट करने के लिए आभार व्यक्त किया। आलिया भट्ट इन दिनों अपनी आगामी फिल्म जिगरा का जमकर प्रचार कर रही हैं। हाल ही में हैदराबाद में जिगरा का प्री-रिलीज इवेंट रखा गया, जहां पर फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट और कुछ नामी हस्तियां शामिल हुईं। जिगरा के प्रचार के दौरान आलिया के अलावा वेदांग रैना भी मौजूद रहे। वहीं जिगरा को सपोर्ट करने के लिए साउथ अभिनेत्री सामंथा भी नजर आईं। इवेंट में आलिया ने जिगरा का समर्थन करने के लिए सामंथा को धन्यवाद दिया। इवेंट के दौरान आलिया ने सामंथा की जमकर प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में सामंथा के साथ निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास और राणा दग्गुबाती भी मौजूद थे। इसी इवेंट का एक वायरल वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें आलिया पुष्पाः द राइज का लोकप्रिय ट्रैक ठऊ अंतवाठ गाते हुए दिखाई दे रही हैं। इस गाने को आलिया ने सिर्फ सामंथा के लिए गाया आलिया ने कहा, ठमेरी प्यारी सामंथा, तुम ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन दोनों में ही असली हीरो हो। मैं तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारी ताकत की बहुत प्रशंसा करती हूं। पुरुषों की दुनिया में एक महिला होना आसान नहीं है। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, और तुम्हारे पास अपनी प्रतिभा और अपनी मजबूत इरादे हैं, जो सभी के लिए एक उदाहरण है।जिगरा की अदाकारा ने निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास से उन्हें और सामंथा को एक साथ एक फिल्म में कास्ट करने के लिए गुजारुश की। आलिया ने कहा, ठइस मंच पर, मैं इस समय जिगरा के प्रचार के लिए नहीं कह रही हूं, मैं वास्तव में ऐसा करना चाहती हूं। त्रिविक्रम सर, मुझे लगता है कि सामंथा और मुझे आपके द्वारा लिखी और निर्देशित एक फिल्म में होना चाहिए।'' आगे आलिया ने कहा, ''आमतौर पर अभिनेत्रियां एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत आभारी हूं कि आज मेरी फिल्म का समर्थन करने के लिए पैन इंडिया सुपरस्टार सामंथा यहां मौजूद हैं।



ऑस्कर जीतने के बाद अगली फिल्म की तैयारी में क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन के साथ जमेगी जोड़ी

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)
नई दिल्ली। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो क्रिस्टोफर नोलन अपनी इस फिल्म को 17 जुलाई 2026 में रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। इसी कारण वह इस प्रोजेक्ट के लिए एक बार फिर एक नई कहानी के साथ लौट रहे हैं। ओपनहाइमर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने के लिए दुनियाभर से बधाई मिलने के बाद क्रिस्टोफर नोलन अपनी अपने अगले प्रोजेक्ट की ओर रुख कर रहे हैं। बेस्ट डायरेक्टर की खिताब से नवाजे जाने के बाद निर्देशक उसी स्टूडियो में एक बार फिर वापस लौट रहे है, जहां से उनके ऑस्कर तक जाने का सफर आसान हुआ था। हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि इस बार क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्म के हीरो के लिए मैट डेमन के नाम पर चर्चा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो क्रिस्टोफर नोलन अपनी इस फिल्म को 17 जुलाई 2026 में रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। इसी कारण वह इस प्रोजेक्ट के लिए एक बार फिर एक नई कहानी के साथ लौट रहे हैं। खबर यह भी है कि निर्देशक फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए मैट डेमन से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक नोलन की तरफ से किसी भी खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। खबर यह भी है कि नोलन इस नई फिल्म के लिए भी अपनी वही पुरानी नीति को अपनाने की तैयारी में हैं। अपनी पिछली परियोजनाओं की तरह नोलन ने अपनी इस फिल्म की कहानी को भी पूरी तरह से गुप्त रखा है। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी मानना है कि निर्देशक अपनी फिल्म की शूटिंग 2025 शुरू भी कर देंगे। हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि ओपेनहाइमर की सफलता के बाद नोलन जल्द ही सबके सामने अपने इस प्रोजेक्ट का खुलासा कर देंगे वहीं, बात करें मैट डेमन की तो अगर अभिनेता ने इस फिल्म के लिए अपनी सहमति जाहिर कर दी तो यह निर्देशक के साथ उनका तीसरा सहयोग होगा। अभिनेता ने ओपेनहाइमर से पहले साल 2014 की इंटरस्टेलर का भी हिस्सा थे।

बिग बॉस 18 में वाइल्ड कार्ड को लेकर अफवाहें तेज, विवियन की पूर्व पत्नी वाहबिज का नाम भी शामिल

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)
नई दिल्ली। 'बिग बॉस' के घर में सदस्यों के बीच गरमा-गरमी भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब फैंस विवियन की पूर्व पत्नी के शो में शामिल होने की कयास लगा रहे हैं। उनके अलावा करम राजपाल के भी शो में जुड़ने की अफवाहें सामने आ रही हैं।'बिग बॉस' के 18वें सीजन की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। शो के शुरूआती एपिसोड में ही प्रतियोगियों के बीच गरमा-गरमी शुरू हो चुकी है। कुछ प्रतियोगियों के बीच तीखी बहस और ड्रामा भी देखने को मिला है। शहजादा धामी की चुम दरंग की तकरार से लेकर करण वीर मेहरा की अरफीन खान-अविनाश मिश्रा के साथ तीखी नोकझोंक तक, बिग बॉस का ये घर जल्द ही पहलवानों का अखाड़ा में तब्दील होता नजर आ रहा है। अब शो के निर्माता भी इसमें और मसाला डालने की योजना बना रहे हैं, जिसे लेकर संभावित वाइल्ड कार्ड एंट्री की अफवाहें आने लगी हैं। शो को लेकर फैंस के बीच पहले से ही चर्चा हो रही है कि वाहबिज दोराबजी और करम राजपाल जल्द ही इस विवादास्पद रियलिटी शो में प्रवेश कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, बिग बॉस के फैंस को उम्मीद है कि वाहबिज दोराबजी इस सीजन बतौर वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी जल्द ही शामिल हो सकती है। वो इस घर मे मौजूद प्रतियोगी विवियन डीसेना की पूर्व पत्नी हैं। साल 2013 में प्यार की ये एक कहानी में साथ काम करने के बाद दोनों को प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों ने शादी भी रचा ली थी, लेकिन साल 2021 में उनका तलाक हो गया। वाहबिज दोराबजी से अलगाव के बाद विवियन ने फिर से शादी कर ली है। वह मिस्र की पत्रकार नूरन एली के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। ऐसे में अगर वाहबिज घर में प्रवेश करती हैं, तो दर्शक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि उनके और उनके पूर्व पति के बीच क्या समीकरण होगा। क्या वे गरमागरम बहस में शामिल होंगे या वे चीजों को शालीन बनाए रखने में कामयाब होंगे? इसे लेकर सोशल मीडिया पर शो के फैंस द्वारा तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वाहबिज के साथ, अभिनेता करम राजपाल के भी 'बिग बॉस 18' के घर में शामिल होने की अफवाह है।

नाटू-नाटू' गाने पर खूब थिरकती हैं आलिया की बेटी राहा, अभिनेत्री के घर में हर दिन बजता है यह गाना

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)
नई दिल्ली। आलिया भट्ट के प्रशंसक जब भी सोशल मीडिया पर अभिनेत्री की रणबीर और राहा के साथ मनमोहक तस्वीरें देखते हैं, तो वह उत्साह से भर जाते हैं। वह राहा के बारे में जानना पसंद करते हैं। आलिया भट्ट भी फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स में बेटी राहा के बारे में दिलचस्प किस्सों का खुलासा करती रहती हैं। अब हाल ही में, आलिया ने बताया है कि राहा किस गाने को सुनकर थिरकती हैं। हाल ही में, आलिया ने खुलासा किया कि छोटी राहा को जूनियर एनटीआर और रामचरण पर फिल्माया गया गाना नाटू-नाटू बहुत पसंद है और वे इसके स्टेप्स करने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन इतनी छोटी होने के कारण वह अभी तक उन्हें करने में सक्षम नहीं है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आलिया ने बताया, ठनाटू नाटू सच में मेरे घर में हर दिन बजता है। राहा, मेरी बेटी को 'नाटू-नाटू' बहुत पसंद है। वह गाना बजाती है और कहती है, 'मम्मा, नाटू नाटू बजाओ,' फिर हम गाना बजाते हैं, और वह कहती है, 'मम्मा, यहां आओ,' और वह मुझे किसी के सहारे खड़ा करती है, और फिर हम यह स्टेप करते हैं। उन्होंने आगे कहा, ठजाहिर है, वह यह स्टेप करना नहीं जानती, लेकिन उसने किसी अवॉर्ड फंक्शन में मेरा नाटू-नाटू करते हुए वीडियो देखा था और कहा, 'मामा का नाटू-नाटू करते हुए वीडियो दिखाओ।ठ दिल्ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आलिया भट्ट से पूछा गया कि वह अपनी बेटी को सबसे पहले कौन सा गाना दिखाना चाहेंगी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री ने जवाब दिया कि एक दिन पहले ही राहा ने उनका पहला गाना देखा था , जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की 'राधा तेरी चुनरी' थी।इस बीच, वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया अगली बार वासन बाला की जिगरा में वेदांग रैना के साथ नज़र आएंगी। यह फिल्म 11 अक्तूबर, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

जूनियर एनटीआर ने दर्शकों पर फोड़ा 'देवरा' के खराब प्रदर्शन का ठीकरा, कहा- लोगों ने गलत तरह से जज किया

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)
नई दिल्ली। साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और जान्हवी कपूर की फिल्म 'देवरा' सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर दमदार कमाई भी की थी, साथ ही समीक्षकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी मिली, लेकिन अब दर्शकों के सिर से 'देवरा' का क्रेज उतरता नजर आ रहा है। जूनियर एनटीआर ने दो साल बाद फिल्म 'देवरा पार्ट वन' से बड़े पर्दे पर वापसी की है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 12वें दिन 4.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। अब देखना है कि फिल्म आने वाले दिनों में कितनी कमाई करती है। बताया है। आइए जानते हैं कि अभिनेता ने क्या कहा है। निर्देशक कोरटाला शिवा की देवाराः पार्ट 1 जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान और जान्हवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं और यह फिल्म लगातार अच्छी कमाई कर रही थी, लेकिन अब दर्शक फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म उतना प्रभाव नहीं डाल पाई है, जितनी उम्मीद की जा रही थी।इस फिल्म ने वैश्विक ब्लॉकबस्टर आरआरआर के बाद दो साल बाद जूनियर एनटीआर की सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की है, उम्मीदें तो काफी ज्यादा थीं। ,लेकिन इसे फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली-जुली समीक्षा मिली। जबकि फिल्म ने सोमवार तक दुनिया भर में 466 करोड़ रुपये की कमाई की है, इसका प्रदर्शन प्रभास-स्टारर 'कल्कि 2898 एडी' जैसी और हालिया भारतीय ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तुलना में कम है।

मन की आंखों से लिखे गीत, संगीत के इस नायक के बिना 'रामायण' भी होती अधूरी

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)
नई दिल्ली। भारतवर्ष की धरती पर एक ऐसे संगीतकार और गीतकार का जन्म हुआ, जो शरीर की आंखों से नहीं देख सकता था, लेकिन उसने अपनी मन की आंखों से जो कुछ देखा और दिखाया वह आंख वाले भी कम ही देख पाते हैं। हम बात कर रहे हैं संगीतकार रविंद्र जैन की, जिनके गीतों के बिना रामानंद सागर की 'रामायण' भी अधूरी है। रविंद्र का जन्म 28 फरवरी 1944 को जिला अलीगढ़ के मोहल्ला कनवरीगंज में हुआ था। वह जन्म से ही देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी मन की आंखों से कोई रंग अछूता नहीं रहा। रविंद्र जैन के पिता इंद्रमणि जैन आयुर्वेदाचार्य थे। वह सात भाई-बहन थे। रविंद्र की दृष्टि में प्रकाश ना होने के कारण सभी उनके भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते थे। कहा जाता है कि महाकवि सूरदास से प्रेरित होकर उन्होंने संगीत की साधना शुरू की। वह कोलकाता गए जहां पर उनकी साधना को साधन मिले। इसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख कर लिया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म 'सौदागर' से की। इस फिल्म के लिए उन्होंने गीत लिखे भी और संगीतबद्ध भी किया। रविंद्र जैन ने फिल्मों के लिए दर्जनों होली के गीत लिखें और उन्हें संगीतबद्ध किया।

600 करोड़ क्लब में एंट्री करने से कुछ दूर स्त्री 2

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)
नई दिल्ली। श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब राज किया है। फिल्म ने ब्लॉकबस्टर बनकर तमाम रिकॉर्ड अपने नाम किया है। गजब को यह है कि फिल्म का धमाल अब भी जारी है। श्रद्धा की फिल्म का क्रेज दर्शकों पर ऐसा चढ़ा कि लोगों ने फिल्म को सिनेमाघरों में जाकर कई बार देखा है। वहीं बात करें 'देवरा' की तो जूनियर एनटीआर की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भले ही जबर्दस्त ओपनिंग ली थी, लेकिन अब सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। आइए जानते हैं कि मंगलवार को किस फिल्म ने कितनी कमाई की है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की 'स्त्री 2' ब्लॉकबस्टर हॉरर कॉमेडी स्त्री का सीक्वल है, जो 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म 14 अगस्त, 2024 की रात को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे दर्शकों से जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म 600 करोड़ क्लब में एंट्री करने से कुछ ही कदम दूर है। फिल्म की रिलीज को 55 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन दर्शक अभी भी फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। हालांकि, अब धीरे-धीरे फिल्म का कलेक्शन कम हो रहा है और इसे ओटीटी पर रिलीज करने की तैयारी चल रही है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'स्त्री 2' ने 55वें दिन का कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने मंगलवार को 45 लाख का कारोबार किया है। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 595.5 करोड़ रुपये पहुंच गई है। साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और जान्हवी कपूर की फिल्म 'देवरा' सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले दिन जबर्दस्त उत्साह देखने को मिला था। फिल्म ने ओपनिंग डे पर दमदार कमाई भी की थी, साथ ही समीक्षकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी मिली, लेकिन अब दर्शकों के सिर से 'देवरा' का क्रेज उतरता नजर आ रहा है। जूनियर एनटीआर ने दो साल बाद फिल्म 'देवरा पार्ट वन' से बड़े पर्दे पर वापसी की है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 12वें दिन 4.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। अब देखना है कि फिल्म आने वाले दिनों में कितनी कमाई करती है।

स्वत्वाधिकारी एवं मुद्रक डा0 दीपक अरोरा द्वारा रामा प्रिन्टर्स 53/25/1 ए बेली रोड न्यू कटरा प्रयागराज (उ.प्र.) 211002 से मुद्रित एवं सी-41 यूपी एसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र नैनी प्रयागराज। (उ.प्र.) 211010 से प्रकाशित।
सम्पादक/प्रकाशक
डा0 पुनीत अरोरा
मो0न0 09415608710
RNI No. UPHIN/2015/63398
website:www.adhuniksamachar.com

नोटः- इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होगे।